



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर 2012-अग्रहायण 2, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ के समक्ष

(मूल कम्पनी क्षेत्राधिकार)

कम्पनी याचिका क्र. 24/2012

कम्पनी याचिका (आवेदन) क्र. 22/2012 के साथ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में

एवं

नई दुनिया मीडिया लिमिटेड एवं जागरण प्रकाशन लिमिटेड एवं

उनके संबंधित अंशधारियों एवं लेनदारों के मध्य

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 391-394 सहपठित धाराएं 78, 100-104 के अन्तर्गत प्रबंध योजना के मामले में

एवं

के मामले में:

नई दुनिया मीडिया लिमिटेड,

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी एवं

जिसका पंजीकृत कार्यालय 60/1, बाबू लाभचंद छजलानी मार्ग,

इन्दौर-452 009.

याचिकाकर्ता

याचिका की सूचना

उपरोक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-391-394 के अन्तर्गत दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 को, नई दुनिया मीडिया लिमिटेड एवं जागरण प्रकाशन लिमिटेड एवं उनके अंशधारियों एवं लेनदारों के मध्य प्रबंध योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिये एक याचिका प्रस्तुत की गई है तथा उपरोक्त याचिका को दिनांक 5 दिसम्बर, 2012 को माननीय कम्पनी न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित किया गया है.

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त याचिका का समर्थन या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह व्यक्ति याचिकाकर्ता के अभिभाषक को इस आशय की सूचना, अपना नाम व पता सहित या अपने अभिभाषक के माध्यम से सुनवाई दिनांक से 2 दिन पूर्व भिजवाये, यदि वह आपत्ति करता है तो आपत्ति करने का कारण शपथ-पत्र की प्रतिलिपि सहित सूचना-पत्र के साथ भिजवाये एवं यदि ऐसा व्यक्ति याचिका की प्रति प्राप्त करना चाहता हो तो याचिकाकर्ता के अभिभाषक से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है.

दिनांक 06 नवम्बर, 2012.

यतीश लाड़,

अभिभाषक,

तर्फे याचिकाकर्ता कम्पनी,

304, जे. वी. कॉम्प्लेक्स, 2/13 रेस कोर्स रोड,

इन्दौर-450 001 (म. प्र.).

(202-बी.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रेमनारायण शर्मा ने पुनः विवाह नीतू सिकरवार के साथ सम्पन्न कर लिया एवं विवाहोपरान्त नीतू सिकरवार का नाम नीतू शर्मा पत्नी राजेश शर्मा हो गया है. नीतू सिकरवार का अपने पूर्व पति संदीप सिकरवार से तलाक होने के बाद नीतू शर्मा के दोनों बच्चों कुमारी श्रेया सिकरवार उम्र 11 वर्ष एवं मास्टर अचिन्तय सिकरवार उम्र 8 वर्ष के भरण पोषण की जिम्मेदारी मुझ राजेश शर्मा ने ले ली है.

अतः दोनों बच्चों का नाम कुमारी श्रेया सिकरवार एवं मास्टर अचिन्तय सिकरवार के स्थान पर कुमारी श्रेया शर्मा एवं मास्टर अचिन्तय शर्मा पढ़ा एवं लिखा जावे एवं पिता संदीप सिकरवार के नाम के स्थान पर पिता राजेश शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे.

राजेश शर्मा,

निवासी—दुर्गा बिहार कॉलोनी, डी.आर.पी. लाईन के पीछे,

जेल रोड, ग्वालियर.

(199-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, ज्योति पाण्डे ने विवाह उपरांत अपना नाम परिवर्तन कर दीप त्रिपाठी कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

नया नाम :

(ज्योति पाण्डे)

(दीप त्रिपाठी)

120, सुदामा नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(203-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, काजल तुलसीदास लखयानी ने विवाह उपरांत अपना नाम परिवर्तन कर संजना नन्दवानी कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जानी जाए.

पुराना नाम :

नया नाम :

(काजल तुलसीदास लखयानी)

(संजना नन्दवानी)

154, क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर (म. प्र.).

(204-बी.)

नाम परिवर्तन

हमने हमारी पुत्री आबिदा शेख का नाम परिवर्तन कर आलिया शेख कर लिया है. अब से उसे इसी नाम से जाना जाए,

अलीम शेख/फौजिया शेख,
177, आजाद नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(205-बी.)

नाम परिवर्तन

हमने हमारे पुत्र मोहम्मद शेख अली का नाम परिवर्तन कर मोहम्मद अली कर लिया है. अब से उसे इसी नाम से जाना जाए.

अलीम शेख/फौजिया शेख,
177, आजाद नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(206-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम (ADITYA PRAKASH NARAYAN) के नाम से जाना जाता था. अतः मुझे वर्तमान में (ADITYA PRAKASH NARAYAN SINHA) के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(आदित्य प्रकाश नारायण)
(ADITYA PRAKASH NARAYAN)

नया नाम :

(आदित्य प्रकाश नारायण सिन्हा)
(ADITYA PRAKASH NARAYAN SINHA)
209, उर्मिला सदन, वार्ड नम्बर-5, नेहरू नगर,
नियर शिव मंदिर रोड, जिला सिंगरौली (म. प्र.).

(207-बी.)

विविध**अन्य सूचनाएं****कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर**

सीहोर, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012

पंजीयन निरस्ती आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./562, दिनांक 02 जून, 2012 से कहार मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, आष्टा, तहसील आष्टा, पंजीयन क्रमांक 1021, दिनांक 22 नवम्बर, 1992 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था के परिसमापक श्री एन. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः एतद्वारा मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहार मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, आष्टा, तहसील आष्टा, पंजीयन क्रमांक 1021, दिनांक 22 नवम्बर, 1992 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(550)

अशोक कुमार शुक्ला,
उप-पंजीयक.

कार्यालय सामान्य वनमण्डल, खण्डवा

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश चराई नियम-1986 के नियम-4 के तथा इस कार्यालय की कार्य आयोजना की कंडिका 20-03, के अनुसार चराई के लिये प्रतिबंधित क्षेत्रों के अन्तर्गत पूर्व निमाड़, खंडवा जिले के वनमण्डल सामान्य खण्डवा के अधीन आरक्षित एवं संरक्षित वनों के कूपों बांस एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों में दिनांक 01 जुलाई, 2012 से आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की चराई के लिये प्रतिबंधित घोषित किये जाते हैं। जो कोई पशु स्वामी/चरवाहे वन क्षेत्रों में पशु चराते पाये जावेंगे, उनके विरुद्ध वन नियमावली अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

वर्ष 2012-13 के लिये चराई के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र का विवरण

परिक्षेत्र	पातन श्रेणी का नाम	कक्ष क्रमांक	कूप नं.	रकबा हे. में.		
1	2	3	4	5		
परिक्षेत्र	पातन श्रेणी का नाम	नया कक्ष क्र..	पुराना कक्ष क्रमांक	कूप नं.	क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	
					(हेक्टर में)	
	1 टिटगांव	सुधार उपचार कार्य वृत्त	21	236	II	138.420
			21	236	III	152.810
	2 कमलिया	-, -	39	211	II	125.650
			39	211	III	138.730
	3 बलियापुरा	-, -	49	214	II	113.530
			49	214	III	87.210
	4 आवंलिया	-, -	61	224	II	77.170
			61	224	III	82.460
सिंगाजी	5 छोटतवा	-, -	469	278	II	294.630
			469,467 ए	278	III	81.45+152.35
	6 आशापुरा	-, -	473	274	II	212.210
			473	274	III	184.100
मूंदी	7 टिकारी	-, -	144	310	II	138.360
			142	311	III	124.420
	8 चिकढालिया	-, -	138	326	II	148.850
			134	327	III	195.980
मूंदी	9 चान्देल	-, -	118	337	II	138.160
			118	337	III	134.410
	10 जामकोटा	-, -	110	354	II	51.830
			103	355	II	53.780
			104	356	II	53.210
			89	369	III	152.990

1	2	3	4	5	6	(हेक्टर में)
पुनासा	11	मांधाता सुधार उपचार	223	P-17	II	140.440
		कार्य वृत्त	218	P-13	III	172.230
	12	पालडी -,,-	200	P-15	II	148.050
			191	P-15	III	152.810
	13	धावडी -,,-	157	305	II	126.900
			159	303	III	14.710
	14	सुकवा -,,-	194	272	II	155.930
			194	272	III	173.160
	15	बायफल -,,-	162	301	II	185.420
			162	301	III	82.53+89.48
			160	302	III	
	16	हंतिया -,,-	168	286	II	134.430
			168	286	III	113.310
बलडी	17	बरमलाय -,,-	400	404	II	116.630
			413	P-88	III	149.250
	18	दरकली -,,-	395	388	II	111.360
			395	388	III	109.78+38.83
			385	398	III	
चांदगढ़	19	अंधारवाडी सुधार उपचार	270	489	II	150.520
		कार्य वृत्त	273	486	III	178.870
	20	सिरकिया -,,-	264	472	II	161.570
			264	472	III	147.330
	21	पामाखेडी -,,-	280	475	II	70.200
			306	416	III	199.350
	22	माथनी -,,-	293	439	II	30.120
			288	441	II	99.370
			290	433	III	157.180
	23	बारंगा -,,-	301	425	II	178.510
			284	427	III	176.130
	24	कातरकुआ -,,-	254	465	II	127.270
			254	465	III	131.45
	25	भेटखेडा -,,-	240	450	II	53
			230 अ	452	II	74

1	2	3	4	5	6	
					(हेक्टर में)	
चांदगढ़	25	भेटखेडा सुधार उपचार कार्य वृत्त	231, 232	451, 453	II, III	133.74 108.28+73.69
पू. का. भी.	26	चाडिदा -,,-	609	310	II	165.380
			598	306	III	171.900
पू. का. भी.	27	काली घोडी प्रवरण सह सुधार	579	380	II	119.920
			576	377	III	120.300
	28	बागडा -,,-	583	415	II	15.920
			583	415	III	137.250
	29	भागपुरा -,,-	624	460	II	112.430
			624	460	III	97.200
पू. का. भी.	30	झिरपा प्रवरण सह सुधार	637	443	II	168.750
			638	410	III	152.430
	31	खातेगांव -,,-	560	345	II	151.460
			560	345	III	129.890
	32	केकडिया -,,-	562	341	II	145.690
			557	347	III	132.760
	33	माथनी -,,-	551	334	II	82.800
			554	331	III	192.990
	34	ढोलगांव -,,-	620	427	II	155.700
			612	430	III	150.540
	35	चट्टूभट्टू -,,-	564	320	II	158.520
			610	311	III	173.480
आंबलिया	36	कदवालिया -,,-	487	404	II	66.610
			490	407	III	165.150
	37	पलासपुर -,,-	486 अ	400	II	171.010
			489	406	III	141.300
	38	सेमलिया -,,-	508	385	II	105.910
			505	389	III	116.100
	39	आंबलिया -,,-	511	395	II	85.300
			517	375	III	114.080
	40	गोलखेडा -,,-	530	366	II	150.350
			530	366	III	78.900
	41	मेहलू -,,-	533	362	II	84.610
			533	362	III	101.320

1	2	3	4	5	6		
					(हेक्टर में)		
आंवलिया	42	विक्रमपुर	प्रवरण सह सुधार	539	356	II	71.550
				539	356	III	80.100
	43	तावखेडी	-,,-	546	339	II	142.500
				542	354	III	125.370
योग . .					11297.620		
खण्डवा	1	टिटगांव	सुधार उपचार कार्यवृत्त		20	IV	151.80
	2	कमलिया	-,,-		39	IV	117.83
	3	बलियापुरा	-,,-		49	IV	82.62
	4	आंवलिया	-,,-		61	IV	51.82
सिंगाजी	5	छोटातवा	-,,-		467 A	IV	196.82
	6	आशापुर	-,,-		472	IV	264.03
मुंदी	7	टिकारी	-,,-		143	IV	162.55
	8	चिकढालिया	-,,-		134	IV	59.57
			-,,-		147		75.37
	9	चांदेल	-,,-		117	IV	144.73
	10	जामकोट	-,,-		89	IV	107.45
			-,,-		88		107.86
पुनासा	11	मांधाता	-,,-		218	IV	78.14
			-,,-		219		80.35
	12	पालडी	-,,-		191	IV	190.35
	13	धायडी	-,,-		157	IV	135.68
	14	सुकवा	-,,-		194	IV	106.20
	15	बायफल	-,,-		160	IV	127.73
	16	हंतिया	-,,-		168	IV	159.32
बलडी	17	बरमलाय	-,,-		414	IV	14.32
			-,,-		399		12.56
			-,,-		375		3.43
			-,,-		376		83.59
	18	दरकली	-,,-		396	IV	13.56
			-,,-		397 A		38.38
			-,,-		398		83.94
चांदगढ	19	अंधारवाडी	-,,-		273	IV	144.35

1	2	3	4	5	6	
					(हेक्टर में)	
चांदगढ़	20	सिरकिया	-,,-	264	IV	125.02
	21	पामाखेडा	-,,-	303	IV	113.62
	22	माथनी	-,,-	332	IV	109.63
	23	बारंगा	-,,-	302	IV	133.77
	24	कातरकुँआ	-,,-	235	IV	158.28
	25	भेटखेडा	-,,-	232	IV	158.80
पूर्व काली.	26	चाडिजा	-,,-	598	IV	101.02
	26	26	योग . .			3694.49
पूर्व काली.	1	कालीघोडी	प्रवरण सह सुधार	576	IV	106.30
	2	बागडा	-,,-	590 A	IV	137.93
	3	भागपुरा	-,,-	630	IV	151.34
	4	झिरपा	-,,-	638	IV	82.80
	5	खातेगांव	-,,-	559	IV	71.12
	6	केकडिया	-,,-	556	IV	104.83
	7	माथनी	-,,-	554	IV	207.41
	8	ढोलगांव	-,,-	612	IV	164.92
	9	चट्टभट्टू	-,,-	610	IV	139.68
आंवलिया	10	कदवालिया	-,,-	485	IV	153.23
	11	पलासपुर	-,,-	486 A	IV	129.89
	12	सेमलिया	-,,-	505	IV	129.84
	13	आंवलिया	-,,-	512	IV	62.95
	14	गोलखेडा	-,,-	529	IV	109.84
	15	मेहलू	-,,-	533	IV	68.40
	16	विक्रमपुर	-,,-	539	IV	128.12
	17	तावखेडी	-,,-	542	IV	122.44
	17	17	योग . .			2071.04
	43	43	कुल योग . .			17063.15

परिक्षेत्र	पातन श्रेणी का नाम	नया कक्ष क्रमांक	कूप नं.	क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	
				(हेक्टर में)	
खण्डवा	1 किरगांव	पुनस्थापना कार्यवृत्त	46	IV	147.770
	2 देवला	-,,-	11	IV	179.340
	3 गजवाडा	-,,-	25	IV	153.420
	4 लखनगांव	-,,-	60	IV	95.060
सिंगाजी	5 सिंगाजी	-,,-	452	IV	217.630
पुनासा	6 रीछफल	-,,-	222	IV	82.280
मुंदी	7 मुंदी	-,,-	76	IV	128.820
योग . .					1004.320

कार्य आयोजना के अनुसार कूपों की जानकारी वर्ष 2007-08 (वनमण्डल सा. खण्डवा)

परिक्षेत्र	पातन श्रेणी	कार्यवृत्त	नया कक्ष क्र.	कूप नं.	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6
खण्डवा	1 टिटगांव	सुधार उपचार कार्यवृत्त	20	V	77.25
	2 कमलिया	-,,-	39	V	148.49
	3 बलियापुरा	-,,-	49	V	77.95
	4 आंवलिया	-,,-	61	V	89.75
सिंगाजी	5 छोटतवा	-,,-	453	V	194.86
	6 आशापुर	-,,-	472	V	274.47
मुंदी	7 टिकारी	-,,-	143	V	199.57
	8 चिकढालिया	-,,-	132	V	187.33
	9 चान्देल	-,,-	116	V	4.59
		-,,-	115	V	187.97
	10 जामकोटा	-,,-	99	V	121.87
		-,,-	100	V	27.81
पुनासा	11 मांधाता	-,,-	219	V	164.03
	12 पालडी	-,,-	193	V	208.80
	13 धायडी	-,,-	159	V	186.12
	14 सुकवा	-,,-	183	V	108.70
	15 बायफल	-,,-	160	V	105.50
	16 हंतिया	-,,-	169	V	146.19
बलडी	17 बरमलाय	-,,-	410	V	2.01
		-,,-	418	V	8.40

1	2	3	4	5	6	
बलडी	17	बरमलाय	सुधार उपचार कार्यवृत्त	415	V	6.13
			-,,-	416	V	48.68
			-,,-	411	V	50.85
			-,,-	422	V	1.35
	18	दरकली	-,,-	384	V	128.04
चांदगढ़	19	अंधारवाडी	-,,-	279	V	211.73
	20	सिरकिया	-,,-	265	V	408.80
	21	पामाखेडी	-,,-	309	V	76.78
			-,,-	P-310	V	16.72
			-,,-	316	V	32.08
			-,,-	317	V	12.37
			-,,-	308	V	43.82
	22	माथनी	-,,-	P-343	V	19.02
			-,,-	344	V	74.81
			-,,-	332	V	87.22
	23	बारंगा	-,,-	302	V	135.33
	24	कातरकुँआ	-,,-	235	V	134.98
	25	भेटखेडा	-,,-	233	V	226.16
पूर्व कालीभीत	26	चाडिदा	-,,-	606	V	217.59
	26	26	योग . .			4454.12
पूर्व काली.	1	कालीघोडी	प्रवरण सह सुधार	576	V	94.50
	2	बागडा	-,,-	585	V	148.95
	3	भागपुरा	-,,-	630	V	118.58
	4	झिरपा	-,,-	638	V	109.80
	5	खातेगांव	-,,-	560	V	136.85
	6	केकडिया	-,,-	555	V	100.36
	7	माथनी	-,,-	566	V	120.23
	8	ढोलगांव	-,,-	615	V	244.19
	9	चट्टभट्टू	-,,-	601	V	159.08
आंवलिया	10	कदवालिया	-,,-	485	V	116.54
	11	पलासपुर	-,,-	483	V	97.90
	12	सेमलिया	-,,-	504	V	134.77
	13	आंवलिया	-,,-	517	V	181.96

1	2	3	4	5	6	
आंवलिया	14	गोलखेडा	सुधार उपचार कार्यवृत्त	529	V	84.83
	15	मेहलू	-,,-	532	V	109.03
	16	विक्रमपुर	-,,-	541	V	124.52
	17	तावखेडी	-,,-	542	V	145.62
योग	17					2227.71
कुल योग	43					6681.83

पुनर्स्थापना कार्यवृत्त वनमण्डल सा. खण्डवा वर्ष 2007-08

परिक्षेत्र	पातन श्रेणी का नाम		नया कक्ष क्रमांक	पातनांश कूप क्र.	कुल क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	
					(हेक्टर में)	
खण्डवा	खण्डवा	किरगांव	पुनर्स्थापना कार्यवृत्त	45	V	149.870
-,,-	-,,-	देवला	-,,-	11	V	181.140
-,,-	-,,-	गजवाडा	-,,-	14	V	170.640
-,,-	-,,-	लखनगांव	-,,-	54	V	102.120
सिंगाजी	सिंगाजी	सिंगाजी	-,,-	464	V	167.300
पुनासा	पुनासा	रीछफल	-,,-	पी-213, 214	V	103.510
मुंदी	मुंदी	मुंदी	-,,-	76	V	134.440
योग . .						1009.020

कार्य आयोजना के अनुसार कूपों की जानकारी वर्ष 2008-09 (वनमण्डल सा. खण्डवा)

परिक्षेत्र	पातन श्रेणी	कार्यवृत्त	नया कक्ष क्र.	कूप नं.	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	
खण्डवा	1	टिटगांव	सुधार उपचार कार्यवृत्त	16	VI	140.05
	2	कमलिया	-,,-	39	VI	93.09
	3	बलियापुरा	-,,-	48	VI	107.26
	4	आंवलिया	-,,-	57	VI	203.84
सिंगाजी	5	छोटातवा	-,,-	456	VI	168.06
	6	आशापुर	-,,-	471	VI	262.89
मुंदी	7	टिकारी	-,,-	140	VI	186.98
	8	चिकढालिया	-,,-	131 A	VI	50.61
			-,,-	130	VI	189.38
	9	चान्देल	-,,-	114	VI	167.31
	10	जामकोटा	-,,-	98	VI	170.10
पुनासा	11	मांधाता	-,,-	220	VI	178.57
			-,,-	P-221	VI	8.50

1	2	3	4	5	6	
					(हेक्टर में)	
पुनासा	12	पालडी	सुधार उपचार कार्यवृत्त	193	VI	161.61
	13	धायडी	-,,-	159	VI	87.50
			-,,-	158	VI	94.70
	14	सुकवा	-,,-	183	VI	133.38
	15	बायफल	-,,-	156	VI	176.55
	16	हंतिया	-,,-	169	VI	146.65
बलडी	17	बरमलाय	-,,-	404	VI	116.24
	18	दरकली	-,,-	384	VI	53.63
			-,,-	383	VI	32.43
चांदगढ़	19	अंधारवाडी	-,,-	276 A	VI	302.14
	20	सिरकिया	-,,-	267	VI	415.42
	21	पामाखेडी	-,,-	305	VI	194.40
	22	माथनी	-,,-	329	VI	158.44
	23	बारंगा	-,,-	249	VI	142.15
	24	कातरकुँआ	-,,-	237	VI	72.48
			-,,-	238	VI	100.20
	25	भेटखेडा	-,,-	233	VI	191.00
पूर्व कालीभीत	26	चाडिदा	-,,-	606	VI	113.63
	26	26	योग . .			4619.19
पूर्व काली.	1	कालीघोडी	प्रवरण सह सुधार	576	VI	125.68
	2	बागडा	-,,-	585	VI	199.93
	3	भागपुरा	-,,-	629	VI	127.79
	4	झिरपा	-,,-	638	VI	75.82
	5	खातेगांव	-,,-	559	VI	132.07
	6	केकडिया	-,,-	555	VI	78.75
	7	माथनी	-,,-	566	VI	227.61
	8	ढोलगांव	-,,-	625	VI	195.93
	9	चट्टभट्ट	-,,-	601	VI	176.59
आंवलिया	10	कदवालिया	-,,-	484	VI	113.28
	11	पलासपुर	-,,-	483	VI	140.80
	12	सेमलिया	-,,-	504	VI	126.67
	13	आंवलिया	-,,-	515	VI	111.03
	14	गोलखेडा	-,,-	529	VI	96.88

1	2	3	4	5	6	
					(हेक्टर में)	
आंवलिया	15	मेहलू	प्रवरण सह सुधार	532	VI	103.35
	16	विक्रमपुर	-,,-	541	VI	151.65
	17	तावखेडी	-,,-	543	VI	121.05
योग . .	17					2304.88
कुल योग . .	43					6924.07

पुनर्स्थापना कार्यवृत्त वनमण्डल सा. खण्डवा वर्ष 2008-09

परिक्षेत्र	पातन श्रेणी का नाम	नया कक्ष क्रमांक	पातनांश कूप क्र.	कुल क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
खण्डवा	1 किरगांव	पुनर्स्थापना कार्यवृत्त	45	VI	98.140
-,,-	2 देवला	-,,-	6	VI	161.430
-,,-	3 गजवाडा	-,,-	14	VI	138.100
-,,-	4 लखनगांव	-,,-	54	VI	91.460
सिंगाजी	5 सिंगाजी	-,,-	459	VI	200.700
पुनासा	6 रीछफल	-,,-	205	VI	119.700
मूंदी	7 मूंदी	-,,-	125	VI	93.830
योग . .					903.360

बांस (अतिव्यापी) कार्यवृत्त में कार्य करने का क्रम वर्ष 2008-09

कार्य करने का वर्ष	परिक्षेत्र	पातन श्रेणी	सम्मिलित कक्ष क्रमांक	पातांश कूप क्रमांक	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	बांस का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
2008-09	चाँदगढ़	सिरकिया	256, 255	B	878.02	378.53
2008-09	चाँदगढ़	कनेरी	236, 253, 254	B	1310.80	613.59
2008-09	आंवलिया	बीचपुरी	514, 515, 516, 506	B	1505.20	453.13
2008-09	आंवलिया	ईस्टर्न	536, 537, 535	B	1221.58	593.65
2008-09	पूर्व कालीभीत	विक्रमपुर	555, 562, 556, 557	B	1325.21	523.61
2008-09	पूर्व कालीभीत	जामूखेड़ा	634, 582	B	817.93	224.68
2008-09	पूर्व कालीभीत	केकड़िया	632, 633	B	587.91	335.58
2008-09	पूर्व कालीभीत	बागड़ा	588, 589, 612, 621	B	1319.78	602.07
योग . .					8966.43	3724.84

कार्य आयोजना के अनुसार कूपों की जानकारी वर्ष 2007-08 वनमण्डल सामान्य, खण्डवा

परिक्षेत्र	पातन श्रेणी	कार्यवृत्त	नया कक्ष क्रमांक	कूप नं.	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
अमूल्ला	भिलाईखेड़ा	प्रवरण सह सुधार	752	I	109.53
	ढाकना	-,,-	757	I	83.25
	बारेखेड़ा	-,,-	760	I	128.67
	झारीखेड़ा	-,,-	775	I	66.45
	ताल्याधड़	-,,-	776	I	88.22
	अमूल्ला	-,,-	779	I	98.45
योग . .	6 कूप				574.57
पिपलोद	सोनपुर	-,,-	791	I	209.12
	आंवलिया	-,,-	789	I	115.42
	सुंदरदेव	-,,-	788	I	66.37
	नागोत्तर	-,,-	836	I	147.81
	जोशीनाला	-,,-	823	I	111.12
	मोतीगढ़	-,,-	839	I	99.67
	खारी	-,,-	819	I	87.75
	करमाल	-,,-	817	I	140.30
	सावलीधड़	-,,-	808	I	59.40
	गोगइपुर	-,,-	796	I	98.55
	चूनाखाल	-,,-	799, 806	I	122.00
	ढकोची	-,,-	805	I	67.27
	कुम्हारखेड़ा	-,,-	801	I	101.20
	आराखेड़ा	-,,-	783	I	100.79
	सरमेसर	-,,-	762	I	107.32
योग . .	15 कूप				1634.09
प. कालीभीत	चिमईपुर	-,,-	924	I	99.10
	सिरालिया	-,,-	926	I	85.82
	पिपलिया	-,,-	910	I	118.57
	अम्बाड़ा	-,,-	904	I	102.49
	मालूद	-,,-	907	I	102.77
	कोटवारिया	-,,-	900	I	98.29
	कारीदा	-,,-	895	I	78.07
	पासनदी	-,,-	878	I	68.42

1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
प. कालीभीत	झिरपा	प्रवरण सह सुधार	873	I	73.12
	दावनिया	—,—	864	I	117.26
	चाकरा	—,—	848	I	164.70
	गोलई	—,—	849	I	143.03
	करवानी	—,—	886	I	70.35
योग ..	13 कूप				1321.99
कुल योग ..	34 कूप				3530.65

प. कालीभीत	पुर्नस्थापना	अमुल्ला	716, 717, 721 P. 708	1 to 20	1136.37/20 = 56.82 P. yr.
		हिरापुर	722 to 725	1 to 20	1080.60/20 = 54.33 P. yr.
		खातला	726, 727, 728, 731, P 729	1 to 20	916.24/20 = 45.812 P. yr.
		कुमठा	741, 742, 743, 747, P-967	1 to 20	1751.19/20 = 87.55 P. yr.
		पिपलोद	829, 840, 968, 969, 970, P-835	1 to 20	549.34/20 = 27.467
		झिरपा	854, 874, 897, 933, 935, P-936	1 to 20	773.14/20 (38.657)
अमुल्ला	अतिक्रमण पुर्नस्थापना	भीलखेड़ी	732, 733, 739, P-734, P-736, P-740,	I	46.5
		धावड़िया	718, 719, 720	I	58.59
		दीवाल	724, 715	I	47.98
		जामली	711, 712, 713	I	65.97
		ग्वारी	709, 710	I	46.47
		योग ..			265.51

कार्य आयोजना के अनुसार कूपों की जानकारी

परिक्षेत्र	पातन	श्रेणी	कार्यवृत्त	कक्ष क्रमांक	कूप नम्बर	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6	(हेक्टर में)
अमुल्ला (गुड़ी)	1	भिलाईखेड़ा	प्रवरण सह सुधार	752	II	100.12
	2	ढाकना	—,—	777	II	89.77
	3	बारेखेड़ा	—,—	758	II	78.97
	4	झारीखेड़ा	—,—	775	II	140.90
	5	तालयाधड़	—,—	770	II	120.35
	6	अमूल्ला	—,—	779	II	98.35
योग ..				6		628.22

1	2	3	4	5	6	
					(हेक्टर में)	
पिपलोद	1	सोनपुर	प्रवरण सह सुधार	791	II	123.97
	2	आंवलिया	-,,-	789	II	104.17
	3	सुंदरदेव	-,,-	788	II	73.12
	4	नागोत्तर	-,,-	836	II	197.95
	5	जोशीनाला	-,,-	823	II	101.52
	6	मोतीगढ़	-,,-	839	II	104.57
	7	खारी	-,,-	819	II	103.22
	8	करमाल	-,,-	817	II	114.65
	9	सावलीधड़	-,,-	808	II	103.50
	10	गोगड़पुर	-,,-	796	II	108.67
	11	चूनाखाल	-,,-	806	II	95.64
	12	ढकोची	-,,-	805	II	57.37
	13	कुम्हारखेड़ा	-,,-	801	II	89.39
	14	आराखेड़ा	-,,-	783	II	152.10
	15	सरमेसर	-,,-	762	II	114.10
		योग . .		15		1643.94
प. कालीभीत	1	चिमईपुर	-,,-	924	II	98.77
	2	सिरालिया	-,,-	926	II	96.70
	3	पिपलिया	-,,-	910	II	124.20
	4	अम्बाड़ा	-,,-	904	II	90.60
	5	मालूद	-,,-	907	II	93.12
	6	कोटवारिया	-,,-	900	II	94.26
	7	कारीदा	-,,-	895	II	84.65
	8	पारानदी	-,,-	878	II	73.85
	9	झिरपा	-,,-	873	II	91.57
	10	दावनिया	-,,-	864	II	103.72
	11	चाकरा	-,,-	848	II	114.91
	12	गोलाई	-,,-	849	II	149.50
	13	करवानी	-,,-	886	II	71.60
		योग . .		13		1287.45
		कुल योग . .		34		3559.72

कार्य आयोजना अनुसार बांसकूपों की जानकारी वर्ष 2006-07 एवं 2007-08

बिगाड़ा बांस वन (परस्पर व्यापी) कार्यवृत्त आने वाले कूपों की जानकारी

सामान्य वनमण्डल, खण्डवा

परिक्षेत्र	पातन श्रेणी	कूप नम्बर	सम्मिलित कक्ष क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	बांस का क्षेत्रफल	पातन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
पिपलोद	धामा	B	811, 812, 813, 821, 839, 841	2773.29	1093.90	2008-09
पश्चिम कालीभीत	झिरपा	B	853, 854, 855, 856, 882	1507.74	836.38	
-,,-	मोरवाड़ी	B	890, 904, 905, 906, 907	1745.89	838.55	
योग . .		3	16	6026.92	2768.83	
पिपलोद	धामा	C	795, 796, 815, 816	2622.66	1254.43	2009-10
प. कालीभीत	झिरपा	C	846, 847, 848, 849, 851, 852, 858, 859, 870	2677.76	726.13	
प. कालीभीत	मोरवाड़ी	C	890, 904, 905, 906, 907	2275.90	852.80	
योग . .		3	16	7576.32	2833.36	
पिपलोद	धामा	D	809, 810, 814, 823, 825	3483.27	1286.02	
प. कालीभीत	झिरपा	D	862, 867, 868, 869, 872, 873, 876, 877, 888, 889	3232.41	855.17	
	मोरवाड़ी	D	883, 884, 892, 893, 894, 895, 929, 930	2110.62	845.97	
योग . .				8826.30	2987.16	

कार्य आयोजना के अनुसार कूपों की जानकारी वर्ष 2008-09

(बुरहानपुर वनमण्डल से हस्तांतरित वनक्षेत्र, कार्य आयोजना की स्वीकृति अपेक्षित)

सामान्य वनमण्डल, खण्डवा

परिक्षेत्र	पातन श्रेणी	कार्यवृत्त	कक्ष क्रमांक	कूप नम्बर	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6
अमुल्ला (गुड़ी)	भिलाईखेड़ा	प्रवरण सह सुधार	752	III	94.50
	ढाकना	-,,-	757	III	114.32

(हेक्टर में)

1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
अमूल्ला (गुड़ी)	बारेखेड़ा	प्रवरण सह सुधार	758	III	70.35
	झारीखेड़ा	-,,-	775	III	117.52
	ताल्याधड़	-,,-	770	III	80.32
	अमूल्ला	-,,-	779	III	119.15
	योग . .		6		596.16
पिपलोद	सोनपुर	-,,-	791	III	178.53
	आंवलिया	-,,-	789	III	99.22
	सुंदरदेव	-,,-	788	III	81.92
	नागोत्तर	-,,-	836	III	81.90
	जोशीनाला	-,,-	823	III	107.15
	मोतीगढ़	-,,-	839	III	152.62
	खारी	-,,-	819	III	146.42
	करमाल	-,,-	816	III	123.76
	सावलीधड़	-,,-	808	III	96.07
	गोगइपुर	-,,-	796	III	104.15
	चूनाखाल	-,,-	806	III	91.57
	ढकोची	-,,-	804	III	111.89
	कुम्हारखेड़ा	-,,-	801	III	93.72
	आराखेड़ा	-,,-	783	III	121.12
	सरमेसर	-,,-	762	III	99.10
	योग . .		15		1689.14
पश्चिम कालीभीत	चिमईपुर	-,,-	925, 928	III	90.89
	सिरालिया	-,,-	926	III	76.24
	पिपलिया	-,,-	915	III	93.52
	अम्बाड़ा	-,,-	904	III	83.92
	मालूद	-,,-	907	III	100.50
	कोटवारिया	-,,-	900	III	98.10
	कारीदा	-,,-	895	III	67.50
	पारानदी	-,,-	878	III	82.42
	झिरपा	-,,-	873	III	105.57
	दावनिया	-,,-	864	III	104.62
	चाकरा	-,,-	842	III	106.80
	गोल्ई	-,,-	853	III	64.35
	करवानी	-,,-	886	III	67.50
	योग . .		13		1141.93
	कुल योग . .		34		3427.23

वृक्षारोपण कार्यवृत्त वर्ष 2006-07

परिक्षेत्र	पातन श्रेणी	कार्यवृत्त	कक्ष क्रमांक	कूप नम्बर	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	
खण्डवा-2	1	हीरापुर	वृक्षारोपण	कुल 14 कक्ष	I	84.17
पिपलोद	2	बूटी		कुल 37 कक्ष	I	52.75
प. कालीभीत	3	सिरालिया		कुल 2 कक्ष	I	20.82
योग					157.74	

नोट:—वर्ष 2006-07 से वर्ष 2025-26 तक प्रतिवर्ष 157.74 हे. क्षेत्र प्रस्तावित है।

वनमण्डल सामान्य, खण्डवा

अमुल्ला एवं खण्डवा	1	अमुल्ला	पुर्नस्थापना	716, 717, 721 P. 708	I	56.83
	2	हिरापुर	-,-	722 to 725	I	54.03
	3	खातला	-,-	726, 727, 728, 731, P 729	I	45.81
	4	कुमठा	-,-	741, 742, 743, 747, P-967	I	87.55
पिपलोद	5	पिपलोद	-,-	829, 840, 968, 969, 970, P-835	I	27.470
पश्चिम कालीभीत	6	झिरपा	-,-	854, 874, 897, 933, 935, U-936	I	38.660
योग 6					310.35	

नोट:—वर्ष 2006-07 से वर्ष 2025-26 तक प्रतिवर्ष 310.35 हे. क्षेत्र प्रस्तावित है।

अमुल्ला एवं खण्डवा	1	भीलखेड़ी	अतिक्रमण पुर्नस्थापना	732, 733, 739, P-734, P-736, P-740	I	46.51
	2	धावड़िया	-,-	718, 719, 720	I	58.59
	3	दीवाल	-,-	724, 715	I	47.98
	4	जामली	-,-	711, 712, 713	I	65.97
	5	ग्वारी	-,-	709, 710	I	46.47
योग 5					265.52	

नोट:—वर्ष 2006-07 से वर्ष 2025-26 तक प्रतिवर्ष 265.52 हे. क्षेत्र प्रस्तावित है.

कार्य आयोजना के अनुसार कूपों की जानकारी वर्ष पांतनाश 2009-10 मार्किंग वर्ष 2008-09 (वनमण्डल सा. खण्डवा)

परिक्षेत्र	पातन श्रेणी	कार्यवृत्त	कक्ष क्रमांक	कूप नम्बर	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	
अमुल्ला (गुड़ी)	1	भिलाईखेड़ा	प्रवरण सह सुधार	752	IV	87.07
	2	ढाकना	-,-	757	IV	92.47

1	2	3	4	5	6	
					(हेक्टर में)	
अमूल्ला (गुड़ी)	3	बारेखेड़ा	प्रवरण सह सुधार	759	IV	137.25
	4	झारीखेड़ा	-,,-	775	IV	117.60
	5	तालयाधड़	-,,-	770	IV	80.87
	6	अमूल्ला	-,,-	779	IV	98.90
	योग . .			6		614.16
पिपलोद	1	सोनपुर	प्रवरण सह सुधार	773	IV	111.82
	2	आंवलिया	-,,-	789	IV	101.12
	3	सुंदरदेव	-,,-	788	IV	82.72
	4	नागोत्तर	-,,-	825	IV	61.72
	5	जोशीनाला	-,,-	823	IV	107.77
	6	मोतीगढ़	-,,-	811	IV	96.60
	7	खारी	-,,-	819	IV	116.10
	8	करमाल	-,,-	816	IV	122.35
	9	सावलीधड़	-,,-	808	IV	100.30
	10	गोगड़पुर	-,,-	796	IV	105.75
	11	चूनाखाल	-,,-	806	IV	110.12
	12	ढकोची	-,,-	804	IV	82.35
	13	कुम्हारखेड़ा	-,,-	801	IV	83.90
	14	आराखेड़ा	-,,-	783	IV	110.77
	15	सरमेसर	-,,-	762	IV	95.40
	योग . .			15		1488.79
पश्चिम कालीभीत	1	चिमईपुर	प्रवरण सह सुधार	925, 928	IV	106.27
	2	सिरालिया	-,,-	926	IV	93.25
	3	पिपलिया	-,,-	915	IV	92.30
	4	अम्बाड़ा	-,,-	911	IV	95.97
	5	मालूद	-,,-	907	IV	95.25
	6	कोटवारिया	-,,-	900	IV	91.10
	7	काटीदा	-,,-	896	IV	94.05
	8	पारानदी	-,,-	878	IV	68.82
	9	झिरपा	-,,-	873	IV	150.05
	10	दावनिया	-,,-	862	IV	112.97
	11	चाकरा	-,,-	842	IV	130.11
	12	गोलई	-,,-	853	IV	82.94
	13	करवानी	-,,-	886	IV	63.22
	योग . .			13		1276.30
	कुल योग . .			34		3379.25

कार्य आयोजना के अनुसार कूपों की जानकारी वर्ष 2010-11

परिक्षेत्र	कार्यवृत्त	पातन श्रेणी	कक्ष क्रमांक	कूप नम्बर	कुल रकबा	पातन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
अमूल्ला (गुड़ी)	प्रवरण सह सुधार	भिलाईखेड़ा	752	V	85.72	2010-11
		ढाकना	757	V	107.27	2010-11
	SCI	बारेखेड़ा	759	V	139.50	2010-11
		झारीखेड़ा	775	V	108.17	2010-11
		ताल्याधड़	770	V	85.82	2010-11
		अमूल्ला	768	V	125.10	2010-11
योग . .			6		651.58	
पिपलोद	प्रवरण सह सुधार	सोनपुर	773	V	116.55	2010-11
		आंवलिया	789	V	137.25	2010-11
		सुंदरदेव	788	V	63.22	2010-11
		नागोत्तर	825	V	90.55	2010-11
		जोशीनाला	823	V	110.15	2010-11
		मोतीगढ़	811	V	101.15	2010-11
		खारी	819	V	106.65	2010-11
		करमाल	816	V	125.50	2010-11
		सावलीधड़	808	V	103.42	2010-11
		गोगड़पुर	796	V	89.10	2010-11
		चूनाखाल	806	V	110.40	2010-11
		ढकोची	802	V	91.12	2010-11
		कुम्हारखेड़ा	801	V	84.25	2010-11
		आराखेड़ा	783	V	98.35	2010-11
		सरमेसर	762	V	93.91	2010-11
योग . .			15		1521.57	
पश्चिम कालीभीत	प्रवरण सह सुधार	चिमईपुर	925	V	81.50	2010-11
		सिरालिया	926	V	110.79	2010-11
		पिपलिया	915	V	80.80	2010-11
		अम्बाड़ा	911	V	85.07	2010-11
		मालूद	907	V	90.22	2010-11
		कोटवारिया	892	V	81.90	2010-11
		काटीदा	896	V	131.97	2010-11
		पारानदी	878	V	70.65	2010-11
		झिरपा	876	V	97.20	2010-11

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम कालीभीत	प्रवरण सह सुधार	दावनिया	862	V	102.30	2010-11
		चाकरा	860	V	107.99	2010-11
		गोलई	853	V	79.42	2010-11
		करवानी	886	V	74.26	2010-11
योग . .			13		1194.07	
कुल योग . .			34		3367.22	

कार्य आयोजना के अनुसार कूपों की जानकारी वर्ष 2010-11

(बुरहानपुर वनमण्डल से हस्तांतरित वनक्षेत्र, कार्य आयोजना की स्वीकृति अपेक्षित)

सामान्य वनमण्डल, खण्डवा

परिक्षेत्र	कार्यवृत्त	पातन श्रेणी	कक्ष क्रमांक	कूप नम्बर	कुल रकबा	पातन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
अमूला (गुड़ी)	प्रवरण सह सुधार	भिलाईखेड़ा	752	VI	94.95	2011-12
		ढाकना	756	VI	82.17	2011-12
		बारेखेड़ा	759	VI	161.00	2011-12
		झारीखेड़ा	775	VI	141.30	2011-12
		ताल्याधड़	770	VI	79.62	2011-12
		अमूला	768	VI	173.47	2011-12
योग . .			6		732.51	
पिपलोद	प्रवरण सह सुधार	सोनपुर	773	VI	117.90	2011-12
		आंवलिया	789	VI	106.46	2011-12
		सुंदरदेव	788	VI	77.85	2011-12
		नागोत्तर	825	VI	80.32	2011-12
		जोशीनाला	823	VI	88.42	2011-12
		मोतीगढ़	811	VI	111.15	2011-12
		खारी	819	VI	77.17	2011-12
		करमाल	816	VI	112.14	2011-12
		सावलीधड़	815	VI	70.65	2011-12
		गोगड़पुर	796	VI	108.15	2011-12
		चूनाखाल	795	VI	86.32	2011-12
		ढकोची	802	VI	76.72	2011-12
		कुम्हारखेड़ा	801	VI	121.45	2011-12
		आराखेड़ा	782	VI	114.30	2011-12
		सरमेसर	766	VI	70.12	2011-12
योग . .			15		1419.12	

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम कालीभीत	प्रवरण सह सुधार	चिमईपुर	925	VI	79.87	2011-12
		सिरालिया	926	VI	73.85	2011-12
		पिपलिया	915	VI	77.62	2011-12
		अम्बाड़ा	911	VI	94.65	2011-12
		मालूद	908	VI	90.90	2011-12
		कोटवारिया	892	VI	72.22	2011-12
		काटीदा	893	VI	79.20	2011-12
		पारानदी	879	VI	91.39	2011-12
		झिरपा	876	VI	108.85	2011-12
		दावनिया	862	VI	85.72	2011-12
		चाकरा	860	VI	100.12	2011-12
		गोलई	853	VI	84.42	2011-12
		करवानी	929	VI	146.37	2011-12
		योग . .			13	
कुल योग . .			34		3336.81	

कार्य आयोजना के अनुसार कूपों की जानकारी वर्ष 2012-13

(बुरहानपुर वनमण्डल से हस्तांतरित वनक्षेत्र, कार्य आयोजना की स्वीकृति अपेक्षित)

सामान्य वनमण्डल, खण्डवा

परिक्षेत्र	कार्यवृत्त	पातन श्रेणी	कक्ष क्रमांक	कूप नम्बर	कुल रकबा	पातन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
गुडी (अमुल्ला)	प्रवरण सह सुधार	भिलाईखेड़ा	748	VII	100.150	2012-13
		ढाकना	756	VII	73.850	2012-13
		बारेखेड़ा	759	VII	110.700	2012-13
		झारीखेड़ा	775	VII	94.350	2012-13
		ताल्याधड़	776	VII	82.320	2012-13
		अमूल्ला	768	VII	151.870	2012-13
योग . .			6		613.240	
खालवा (पिपलोद)	प्रवरण सह सुधार	सोनपूर	751	VII	111.370	2012-13
		आंवलिया	789	VII	117.450	2012-13
		सुंदरदेव	788	VII	82.600	2012-13
		नागोत्तर	825	VII	81.120	2012-13
		जोशीनाला	823	VII	83.700	2012-13
		मोतीगढ़	811	VII	88.400	2012-13
		खारी	819	VII	101.900	2012-13

1	2	3	4	5	6	7
खालवा (पिपलोद)	प्रवरण सह सुधार	करमाल	816	VII	106.420	2012-13
		सावलीधड़	815	VII	87.430	2012-13
		गोगईपुर	810	VII	108.370	2012-13
		चूनाखाल	795	VII	89.550	2012-13
		ढकोची	802	VII	99.870	2012-13
		कुम्हारखेड़ा	785	VII	96.300	2012-13
		आराखेड़ा	782	VII	110.250	2012-13
		सरमेसर	766	VII	67.720	2012-13
		योग . .	15		1432.450	
पश्चिम कालीभीत	प्रवरण सह सुधार	सिराल्या	919	VII	92.620	2012-13
		पिपल्या	918	VII	108.620	2012-13
		अम्बाड़ा	909	VII	96.100	2012-13
		मालूर	908	VII	79.440	2012-13
		कोटवारिया	892	VII	73.350	2012-13
		काटीदा	893	VII	92.520	2012-13
		पारानदी	879	VII	83.270	2012-13
		झिरपा	876	VII	84.740	2012-13
		दावनिया	862	VII	113.550	2012-13
		चाकरा	860	VII	99.670	2012-13
		गुलाई	853	VII	90.850	2012-13
		करवानी	887	VII	72.450	2012-13
		चिमईपुर	925	VII	74.300	2012-13
				योग . .	13	
		कुल योग . .	34.000		3207.170	

कार्य आयोजना के अनुसार कूपों की जानकारी वर्ष पांतनाश 2009-10 मार्किंग वर्ष 2008-09 (वनमण्डल सा., खण्डवा)

खण्डवा	1	टिटगांव	सुधार उपचार कार्य वृत्त	16	VII	120.13
	2	कमलिया	-''-	50	VII	157.20
	3	बलियापुरा	-''-	48	VII	147.26
	4	आंवलिया	-''-	57	VII	172.82
सिंगाजी	5	छोटातवा	-''-	453	VII	92.93
			-''-	455 A	VII	34.20
			-''-	456	VII	98.33
	6	आशापुर	-''-	471	VII	201.31

1	2	3	4	5	6
मुंदी	7 टिकारी	सुधार उपचार कार्य वृत्त	140	VII	158.35
	8 चिकढालिया	-''-	145	VII	139.95
	9 चान्देल	-''-	119	VII	140.14
	10 जामकोटा	-''-	105	VII	163.58
पुनासा	11 मांधाती	-''-	228	VII	174.00
	12 पालडी	-''-	192	VII	216.00
	13 धायडी	-''-	158	VII	160.07
	14 सुकवा	-''-	P 85	VII	168.52
	15 बायफल	-''-	156	VII	114.41
	16 हंतिया	-''-	170	VII	138.95
बलडी	17 बरमलाय	-''-	404	VII	102.64
	18 दरकली	-''-	383	VII	130.24
चांदगढ	19 अंधारवाडी	-''-	268	VII	155.08
	20 सिरकिया	-''-	263	VII	123.24
	21 पामाखेडी	-''-	281	VII	118.01
	22 माथनी	-''-	329	VII	125.78
	23 बारंगा	-''-	243	VII	119.52
	24 कातरकुँआ	-''-	238	VII	123.33
	25 भेटखेडा	-''-	233	VII	58.56
		-''-	234	VII	111.78
पूर्वकालीभीत	26 चाडिदा	-''-	604	VII	178.20
योग . .		26			3944.53
पूर्व काली	1 कालीघोडी	प्रवरण सह सुधार	635 A	VII	173.10
	2 बागडा	-''-	590 A	VII	89.45
	3 भागपुरा	-''-	629	VII	169.88
	4 झिरपा	-''-	627	VII	78.98
	5 खातेगांव	-''-	573	VII	209.18
	6 केकडिया	-''-	547	VII	171.39
	7 माथनी	-''-	595	VII	149.29
	8 ढोलगांव	-''-	613	VII	113.40
	9 चट्टभट्टू	-''-	594	VII	212.63
आंवलिया	10 कदवालिया	-''-	484	VII	114.95
	11 पलासपुर	-''-	493	VII	118.92
	12 सेमलिया	-''-	504	VII	100.04
	13 आंवलिया	-''-	515	VII	127.35

1	2	3	4	5	6	
आंवलिया	14	गोलखेडा	प्रवरण सह सुधार	529	VII	85.21
	15	मेहलू	-''-	532	VII	81.12
	16	विक्रमपुर	-''-	541	VII	130.28
	17	तावखेडी	-''-	535	VII	141.75
योग ..		17				2266.92
कुल योग ..		43				6211.45

पुनर्स्थापना कार्यवृत्त वनमण्डल सा. खण्डवा वर्ष 2009-10

क्र.	पातन श्रेणी का नाम	नया कक्ष क्रमांक	पातनांश कूप क्र.	कुल क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	
				6	
				(हेक्टर में)	
खण्डवा	1 किरगांव	पुनर्स्थापना	45	VII	129.980
-''-	2 देवला	-''-	6	VII	161.130
-''-	3 गजवाडा	-''-	13	VII	143.050
-''-	4 लखनगांव	-''-	59	VII	102.360
सिंगाजी	5 सिंगाजी	-''-	477	VII	209.920
पुनासा	6 रीछफल	-''-	205	VII	97.120
मूंदी	7 मूंदी	-''-	126	VII	80.620
योग					924.180

बांस (अतिव्यापी) कार्यवृत्त में कार्य करने का क्रम वर्ष 2009-10

कार्य करने का वर्ष	परिक्षेत्र	पातन श्रेणी	सम्मिलित कक्ष क्रमांक	पातांश कूप क्रमांक	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	बांस का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
2009-10	चाँदगढ़	सिरकिया	267, 279	C	592.12	203.08
2009-10	चाँदगढ़	कनेरी	232, 233, 237	C	958.65	159.31
2009-10	आंवलिया	बीचपुरी	523, 524, 525, 528 529	C	1416.20	462.39
2009-10	आंवलिया	ईस्टर्न	538, 541, 545	C	1162.66	306.64
2009-10	पूर्व कालीभीत	विक्रमपुर	577, 578, 579	C	1004.67	560.69
2009-10	पूर्व कालीभीत	जामूखेड़ा	585, 587	C	686.62	235.99
2009-10	पूर्व कालीभीत	केकड़िया	628, 630, 631	C	936.45	304.37
2009-10	पूर्व कालीभीत	बागड़ा	547, 550, 551, 563 564, 615	C	1999.38	529.81
योग ..					8756.75	2762.28

कार्य आयोजना के अनुसार कूपों की जानकारी वर्ष पांतनाश 2010-11 मार्किंग वर्ष 2009-10 (वनमण्डल सा. खण्डवा)

परिक्षेत्र	पातन श्रेणी	कार्यवृत्त	कक्ष क्र.	कूम नं.	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6
खण्डवा	1 टिटगांव	16 सुधार उपचार कार्यवृत्त	16	VIII	114.30
	2 कमलिया	50 -,,-	50	VIII	172.20
	3 बलियापुरा	48 -,,-	48	VIII	117.23
	4 आंवलिया	58 -,,-	58	VIII	185.63
सिंगाजी	5 छोटातवा	458 -,,-	458	VIII	235.87
आंवलिया	6 आशापुर	495 -,,-	495	VIII	193.50
मुंदी	7 टिकारी	137 -,,-	137	VIII	151.78
	8 चिकढालिया	149 -,,-	149	VIII	167.40
	9 चान्देल	119 -,,-	119	VIII	173.30
	10 जामकोटा	106 -,,-	106	VIII	106.20
पुनासा		109 -,,-	109		24.15
	11 मांधाता	228 -,,-	228	VIII	166.93
		P-229 -,,-	P-229	VIII	2.10
	12 पालडी	201 -,,-	201	VIII	160.65
	13 धायडी	158 -,,-	158	VIII	156.00
	14 सुकवा	P-185 -,,-	P-185	VIII	109.73
बलडी	15 बायफल	156 -,,-	156	VIII	121.05
	16 हंतिया	170 -,,-	170	VIII	136.80
	17 बरमलाय	402 -,,-	402	VIII	102.34
	18 दरकली	383 -,,-	383	VIII	94.36
चांदगढ	19 अंधारवाडी	268 -,,-	268	VIII	127.52
		269 -,,-	269	VIII	106.87
	20 सिरकिया	263 -,,-	263	VIII	131.05
	21 पामाखेडी	281 -,,-	281	VIII	215.99
	22 माथनी	319 -,,-	319	VIII	17.96
		291 -,,-	291	VIII	66.67
पूर्व कालीभीत	23 बारंगा	286 -,,-	286	VIII	160.84
	24 कातरकुंआ	238 -,,-	238	VIII	146.55
	25 भेटखेडा	234 -,,-	234	VIII	237.77
	26 चाडिदा	604 -,,-	604	VIII	102.38
					26
					4005.12

1	2	3	4	5	6		
पूर्व काली.	1	कालीघोडी	579	सुधार उपचार कार्यवृत्त	579	VIII	77.17
	2	बागडा	581 A	-,,-	581 A	VIII	150.38
	3	भागपुरा	621	-,,-	621	VIII	149.67
	4	झिरपा	627	-,,-	627	VIII	121.92
	5	खातेगांव	572	-,,-	572	VIII	100.35
	6	केकड़िया	562	-,,-	562	VIII	84.15
			557	-,,-	557		75.51
			558 A	-,,-	558 A	VIII	69.29
	7	माथनी	595	-,,-	595	VIII	148.50
	8	ढोलगांव	613	-,,-	613	VIII	163.62
	9	चट्टभट्टू	594	-,,-	594	VIII	106.20
आंवलिया	10	कदवालिया	513 A	-,,-	513 A	VIII	79.87
	11	पलासपुर	493	-,,-	493	VIII	94.50
	12	सेमलिया	504	-,,-	504	VIII	132.98
	13	आंवलिया	516	-,,-	516	VIII	199.57
	14	गोलखेडा	529	-,,-	529	VIII	96.98
	15	मेहलू	532	-,,-	532	VIII	68.95
	16	विक्रमपुर	544	-,,-	544	VIII	166.19
	17	तावखेडी	535	-,,-	535	VIII	126.68
							2212.48
							6217.60

बांस (अतिव्यापी) कार्यवृत्त में कार्य करने का क्रम वर्ष 2010-11

1	2	3	4	5	6	7
2010-11	चाँदगढ़	सिरकिया	262, 273	D	738.64	350.64
2010-11	चाँदगढ़	कनेरी	239, 251	D	669.53	156.74
2010-11	आंवलिया	बीचपुरी	502, 509, 508, 501	D	1628.62	347.64
2010-11	आंवलिया	ईस्टर्न	544, 543, 542	D	1076.04	275.57
2010-11	पूर्व कालीभीत	विक्रमपुर	576, 570, 571	D	1218.01	453.81
2010-11	पूर्व कालीभीत	जामूखेड़ा	623, 622	D	672.28	267.72
2010-11	पूर्व कालीभीत	केकड़िया	624, 626, 627, 625	D	1009.36	265.46
2010-11	पूर्व कालीभीत	बागड़ा	601, 606, 608, 593, 565	D	1808.70	450.80
योग					8821.18	2568.38

IFS कार्य आयोजना के अनुसार कूपों की जानकारी वर्ष 2010-11 (वनमण्डल सा. खण्डवा)							
परिक्षेत्र	कार्यवृत्त	पातन श्रेणी	नया कक्ष क्र.	कूप नं.	कुल रकबा	पातनांश वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	
खण्डवा	सुधार उपचार कार्यवृत्त	1	टिटगांव	22	IX	195.38	2011-12
		2	कमलिया	36	IX	136.98	2011-12
		3	बलियापुरा	48	IX	115.63	2011-12
		4	आंवलिया	58	IX	233.20	2011-12
सिंगाजी		5	छोटातवा	475	IX	241.15	2011-12
		6	आशापुर	P 496	IX	6.83	2011-12
				P 497	IX	10.97	2011-12
				P 498	IX	17.25	2011-12
				U 705	IX	64.59	2011-12
				U 706	IX	29.25	2011-12
मुंदी				U 707	IX	60.98	2011-12
		7	टिकारी	137	IX	113.13	2011-12
		8	चिकढालिया	145	IX	133.43	2011-12
		9	चान्देल	118	IX	84.96	2011-12
				119	IX	82.72	2011-12
		10	जामकोटा	91	IX	192.70	2011-12
पुनासा		11	मांधाता	204, P 229	IX	154.65	2011-12
		12	पालडी	201	IX	230.33	2011-12
		13	धायडी	189	IX	177.01	2011-12
		14	सुकवा	181	IX	137.38	2011-12
		15	बायफल	187	IX	209.40	2011-12
		16	हंतिया	170	IX	156.15	2011-12
बलडी		17	बरमलाय	403	IX	186.38	2011-12
		18	दरकली	382	IX	56.55	2011-12
				P 380	IX	31.51	2011-12
				381	IX	14.62	2011-12
चांदगढ़		19	अंधारवाडी	260 A	IX	34.40	2011-12
				261	IX	171.84	2011-12
		20	सिरकिया	259	IX	157.95	2011-12
		21	पामाखेडी	283	IX	130.43	2011-12
		22	माथनी	291	IX	153.32	2011-12

1	2	3	4	5	6	7	
चांदगढ़		23	बारंगा	285	IX	134.43	2011-12
		24	कातरकुँआ	236	IX	114.00	2011-12
		25	भेटखेडा	239	IX	150.30	2011-12
पूर्व कालीभीत		26	चाडिदा	593	IX	166.91	2011-12
योग		26				4286.71	

SCI

पूर्व काली.	प्रवरण सह सुधार	1	कालीघोडी	577	IX	101.23	2011-12
		2	बागडा	587	IX	110.04	2011-12
		3	भागपुरा	621	IX	99.45	2011-12
		4	झिरपा	632	IX	138.96	2011-12
		5	खातेगांव	572	IX	185.63	2011-12
		6	केकडिया	561	IX	96.75	2011-12
		7	माथनी	568	IX	183.15	2011-12
		8	ढोलगांव	619	IX	174.60	2011-12
		9	चट्टभट्ट	592	IX	189.18	2011-12
आंवलिया		10	कदवालिया	513 A	IX	168.42	2011-12
		11	पलासपुर	493	IX	102.02	2011-12
		12	सेमलिया	509	IX	115.33	2011-12
		13	आंवलिया	514	IX	114.52	2011-12
		14	गोलखेडा	521	IX	121.06	2011-12
		15	मेहलू	522	IX	132.76	2011-12
		16	विक्रमपुर	544	IX	140.41	2011-12
		17	तावखेडी	535	IX	142.89	2011-12
योग		17				2316.40	
कुल योग		43				6603.11	

कार्य आयोजना के अनुसार कूपों की जानकारी वर्ष 2012-13

(खण्डवा वनमण्डल वनक्षेत्र, कार्य आयोजना अनुसार की स्वीकृति अपेक्षित)

सामान्य वनमण्डल, खण्डवा

परिक्षेत्र	कार्यवृत्त	पातन श्रेणी	कक्ष क्र.	कूप नम्बर	कुल रकबा	पातन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	सुधार उपचार कार्यवृत्त	टिटगांव	22	X	179.280	2012-13
		कमलिया	36	X	126.12	2012-13
		बलियापुरा	40	X	117.37	वन विकास निगम को हस्तांतरित
		आवलिया	62	X	140.22	
योग			4		562.99	

1	2	3	4	5	6	7
सिंगाजी	सुधार उपचार कार्यवृत्त	आशापुर	474	X	228.094	2012-13
		छोटातवा	460	X	228.060	2012-13
योग			2		456.154	
मूंदी	सुधार उपचार कार्यवृत्त	चिकढालिया	145	X	198.540	2012-13
		टिकारी	137	X	170.550	2012-13
		चान्देल	124	X	176.630	2012-13
		जामकोटा	92, 93	X	236.700	2012-13
योग			4		782.420	
पुनासा	सुधार उपचार कार्यवृत्त	धायडी	189	X	109.350	2012-13
		बायफल	187	X	187.070	2012-13
		सुकवा	197	X	169.052	2012-13
		हंतिया	152	X	307.880	2012-13
		पालडी	202	X	139.500	2012-13
		मांधाता	226	X	148.080	2012-13
योग			6		1060.932	
बलडी	सुधार उपचार कार्यवृत्त	बरमलाय	403	X	142.670	2012-13
		दरकली	386	X	144.040	2012-13
योग			2		286.710	
चांदगढ़	सुधार उपचार कार्यवृत्त	अंधारवाडी	261	X	186.300	2012-13
		सिरकिया	259	X	167.100	2012-13
		पामाखेडी	283	X	112.900	2012-13
		माथनी	291	X	132.500	2012-13
		बारंगा	249, 243, 285	X	205.200	2012-13
		कातरकुआ	236	X	154.800	2012-13
		भेटखेडा	239	X	217.700	2012-13
योग			7		1176.500	
पूर्व काली.	सुधार उपचार कार्यवृत्त	चाडिदा	593	X	134.110	2012-13
योग			1		134.110	
पूर्व काली.	प्रवरण सह सुधार	बागडा	587	X	115.200	2012-13
		भागपुरा	621	X	135.900	2012-13
		झिरपा	632	X	151.350	2012-13
		खातेगांव	572	X	173.250	2012-13

1	2	3	4	5	6	7
पूर्व काली.	प्रवरण सह सुधार	केकडिया	547	X	82.130	2012-13
		माथनी	568	X	195.330	2012-13
		ढोलगांव	619	X	164.790	2012-13
		चट्टू-भट्टू	592, 607	X	243.280	2012-13
		योग	8		1261.230	
आंवलिया	प्रवरण सह सुधार	सेमल्या	505	X	85.720	2012-13
		मेहलू	522	X	95.620	2012-13
		कालीघोड़ी	577	X	164.300	2012-13
		विक्रमपुर	536	X	141.500	2012-13
		तावखेड़ी	534	X	162.700	2012-13
		पलासपुर	486	X	70.200	2012-13
		गोलखेडा	521	X	153.900	2012-13
		कदवालिया	491 A	X	113.220	2012-13
		आंवलिया	512	X	58.100	2012-13
		योग	9		1045.260	
		कुल योग	43		6766.31	

बांस (अतिव्यापी) कार्यवृत्त में कार्य करने का क्रम

कार्य करने का वर्ष	परिक्षेत्र	पातन श्रेणी	सम्मिलित कक्ष क्रमांक	पातांश कूप क्रमांक	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	बांस का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
2011-12	चाँदगढ़	सिरकिया	284, 250	A	595.42	237.14
2011-12	चाँदगढ़	कनेरी	234, 235, 257	A	907, 92	446.76
2011-12	आंवलिया	बीचपुरी	532, 526, 527, 530	A	1508.98	484.35
2011-12	आंवलिया	ईस्टर्न	533, 539	A	713.94	314.91
2011-12	पूर्व कालीभीत	विक्रमपुर	572, 573	A	860.08	473.85
2011-12	पूर्व कालीभीत	जामूखेड़ा	583, 584	A	647.58	405.23
2011-12	पूर्व कालीभीत	केकड़िया	636, 637, 629	A	1049.64	415.82
2011-12	पूर्व कालीभीत	बागड़ा	567, 568, 569	A	1079.11	423.27
योग		8			7362.67	3201.33

बांस (अतिव्यापी) कार्यवृत्त में कार्य करने का क्रम

कार्य करने का वर्ष	परिक्षेत्र	पातन श्रेणी	सम्मिलित कक्ष क्रमांक	पातांश कूप क्रमांक	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	बांस का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
2012-13	चाँदगढ़	सिरकिया	256, 255	B	878.02	378.53
2012-13	चाँदगढ़	कनेरी	236, 253, 254	B	1310.80	613.59
2012-13	आंबलिया	बीचपुरी	514, 515, 516, 506	B	1505.20	453.13
2012-13	आंबलिया	ईस्टर्न	536, 537, 535	B	1221.58	593.65
2012-13	पूर्व कालीभीत	विक्रमपुर	555, 562, 556, 557	B	1325.21	523.61
2012-13	पूर्व कालीभीत	जामूखेड़ा	634, 582	B	817.93	224.68
2012-13	पूर्व कालीभीत	केकड़िया	632, 633	B	587.91	335.58
2012-13	पूर्व कालीभीत	बागड़ा	588, 589, 612, 621	B	1319.78	602.07
योग					8966.43	3724.84

ओंकारेश्वर निधि वृक्षारोपण वर्ष 2008-09

क्रमांक	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	वर्ष 2007-08 क्षेत्र तैयारी हेक्टेयर
1	2	3	4	5
	खण्डवा	खण्डवा	8	50
	खण्डवा	खण्डवा	712	50
	खण्डवा	प. कालीभीत	933	35
	खण्डवा	प. कालीभीत	935	15
	खण्डवा	प. कालीभीत	936	25
	खण्डवा	पिपलोद	829	50
	खण्डवा	पिपलोद	962	50
	खण्डवा	अमुल्ला	745	50
	खण्डवा	अमुल्ला	744	50
	खण्डवा	पुनासा	204	50
योग . .				425

1	2	3	4	5
	खण्डवा	सिंगाजी	472	-
	खण्डवा	मुंदी	645	-
	खण्डवा			-
योग . .				425

चराई से प्रतिबंधित वृक्षारोपण वर्ष 2009-10

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	बीट	कक्ष	रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	सिंगाजी	जावर	461 जावर	50
2	चांदगढ़	कालादेव	250 कालादेव	50
3	आंवलिया	बंदी	500 बंदी	25
4	पिपलोद	सरमेश्वर	950 भडंग्या	30
5	अमुल्ला	नाहरमाल	977 बेड़ियाव	20
6	मुंदी	पलसूद	80 पालसूद	50
7	पुनासा	पुनासा	150 भवरला	50

वर्ष 2008-09 में पुनरुत्पादन समूह के अन्तर्गत सुधार उपचार कार्य वृत्त (I.F.S.) में कराये जाने वाले

कार्यों की स्थलवार जानकारी-खण्डवा सा. वनमण्डल

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कूप क्र. /कक्ष क्र.		रकबा हे. में	
			कूप क्र./पातन श्रेणी V	कक्ष क्रमांक		
1	2	3	4		5	
1	खण्डवा		1.	टिटगांव	20	77.25
5	सिंगाजी		5.	छोटातवा	453	194.86
6			6.	आशापुर	472	274.47
7	मुंदी		7.	टिकारी	143	199.57
8			8.	चिकढालिया	132	187.33
9			9.	चान्देल	116	4.59
10					115	187.97
11			10.	जामकोटा	99	121.87
12					100	27.81

1	2	3	4	5	
13	पुनासा	11.	मांधाता	219	164.03
14		12.	पालडी	193	208.80
15		13.	धायडी	159	186.12
16		14.	सुकवा	183	108.70
17		15.	बायफल	160	105.50
18		16.	हंतिया	169	146.19
19	बलड़ी	17.	बरमलाय	410	2.01
				418	8.40
				415	6.13
				416	48.68
				411	50.85
				422	1.35
		18.	दरकली	384	128.04
	चांदगढ़	19.	अंधारवाडी	279	211.73
		20.	सिरकिया	265	408.80
		21.	पामाखेड़ी	309	76.78
				P-310	16.72
				316	32.08
				317	12.37
				308	43.82
		22.	माथनी	P-343	19.02
				344	74.81
				332	87.22
		23.	बारंगा	302	135.33
		24.	कातरकुंआ	235	134.98
		25.	भेटखेडा	233	226.16
	पू. का. भी.	26.	चाडिदा	606	217.59
योग . .				4137.93	

मिश्रित प्रजाति का वृक्षारोपण कार्य की योजना वर्ष 2008-09

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
	मूंदी	मूंदी	73	50
	अमुल्ला	ताल्याधड	50	50
महायोग . .			2 कक्ष	100

वर्ष 2008-09 में पुनरुत्पादन समूह के अन्तर्गत सुधार उपचार कार्य वृत्त (I. F. S.) में कराये जाने वाले

कार्यों की स्थलवार जानकारी

परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कूप क्र./कक्ष क्र.		कूप क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
		कूप क्र./पातन श्रेणी V	कक्ष क्रमांक		
1	2	3	4	5	6
खण्डवा	1.	टिटगांव	16	VI	140.05
	3.	बलियापुरा	48	VI	107.26
सिंगाजी	5.	छोटातवा	456	VI	168.06
	6.	आशापुर	471	VI	262.89
मूंदी	7.	टिकारी	140	VI	186.98
	8.	चिकढालिया	131 A	VI	50.61
			130	VI	189.38
	9.	चान्देल	114	VI	167.31
पुनासा	10.	जामकोटा	98	VI	170.10
	11.	मांधाता	220	VI	178.57
			P-221	VI	8.50
	12.	पालडी	193	VI	161.61
	13.	धायडी	159	VI	87.50
			158	VI	94.70
	14.	सुकवा	183	VI	133.38
	15.	बायफल	156	VI	176.55
बलडी	16.	हंतिया	169	VI	146.65
	17.	बरमलाय	404	VI	116.24
	18.	दरकली	384	VI	53.63
			383	VI	32.43
चांदगढ़	19.	अंधारवाडी	276 A	VI	302.14
	20.	सिरकिया	267	VI	415.42
	21.	पामाखेडी	305	VI	194.40
	22.	माथनी	329	VI	158.44
	23.	बारंगा	249	VI	142.15
	24.	कातरकुंआ	237	VI	72.48
			238	VI	100.20
पू. का. भी.	25.	भेटखेडा	233	VI	191.00
	26.	चाडिदा	606	VI	113.63
योग					4322.26

एस. योजना

अ. क्र.	जनपद पंचायत	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कक्ष क्रमांक	कक्ष का रकबा
1	2	3	4	5	6
1		पिपलोद	धामा	809	815.16
2				810	738.53
3				814	582.68
4				823	709.83
5				825	637.07
6	योग . .				3483.27
7		पश्चिम कालीभीत	झिरपा	862	414.54
8				867	306.47
9				868	272.29
10				869	293.81
11				872	331.99
12				873	420.31
13				876	389.04
14				877	286.90
				888	276.95
				889	240.11
					3232.41
1		पश्चिम कालीभीत सा.	मोरगढी	883	219.26
2				884	230.79
3				892	318.38
4				893	444.48
5				894	328.36
6				895	230.22
7				929	146.37
8				930	192.76
			योग . .		2110.62
			महायोग . .		8826.30
वर्ष 2009-10 में पुर्नस्थापना समूह के अन्तर्गत बिगड़े वनों के सुधार कार्य (RDF) की स्थलवार जानकारी					
क्र.	जनपद पंचायत	परिक्षेत्र	समिति का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
		खण्डवा		45 (A)	50.00
				45 (B)	50.00
				45 (C)	29.98

1	2	3	4	5	6
				13 (A)	50.00
				13 (B)	50.00
				13 (C)	43.05
				6 (A)	50.00
				6 (B)	50.00
				6 (C)	31.13
				6 (D)	30.00
				59 (A)	50.00
				59 (B)	30.00
				59 (C)	22.36
				721 (A)	26.00
				721 (B)	30.83
				723 (A)	30.00
				723 (B)	24.03
				727	45.81
		योग . .			693.19
		सिगाजी		477 (A)	50.00
				477 (B)	50.00
				477 (C)	50.00
				477 (D)	29.92
				477 (E)	30.00
		योग . .			209.92
		मूंदी		126 (A)	40.00
				126 (B)	40.62
		योग . .			80.62
		पुनासा		205 (A)	50.00
				205 (B)	47.12
		योग . .			97.12
		अमुल्ला		741	40.00
				742	47.49
		योग . .			87.49
		प. कालीभीत		854	38.66
		योग . .			38.66
		पिपलोद		840	27.00
		योग . .			27.00
		महायोग . .			1234.00

वर्ष 2009-10 में पुनरुत्पादन समूह के अन्तर्गत चयन-सह-सुधार कार्यवृत्त (S.C.I.) में कराये गये

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कूप क्र./ कक्ष क्रमांक		कूप क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	
			कूप क्रमांक/पातन श्रेणी	कक्ष क्रमांक			
1	2	3	4		5	6	
	पूर्व काली.		1	कालीघोडी	576	VI	125.68
			2	बागडा	585	VI	199.93
			3	भागपुरा	629	VI	127.79
			4	झिरपा	638	VI	75.82
			5	खातेगांव	559	VI	132.07
			6	केकडिया	555	VI	78.75
			7	माथनी	566	VI	227.61
			8	ढोलगांव	625	VI	195.93
			9	चट्टभट्ट	601	VI	176.59
	आंवलिया		10	कदवालिया	484	VI	113.28
			11	पलासपुर	483	VI	140.80
			12	सेमलिया	504	VI	126.67
			13	आंवलिया	515	VI	111.03
			14	गोलखेडा	529	VI	96.88
			15	मेहलू	532	VI	103.35
			16	विक्रमपुर	541	VI	151.65
			17	तावखेडी	543	VI	121.05
	अमूल्ला (गुड़ी)			भिलाईखेड़ा	752	III	94.50
				ढाकना	757	III	114.32
				बारेखेड़ा	758	III	70.35
				झारीखेड़ा	775	III	117.52
				ताल्याधड़	770	III	80.32
				अमूल्ला	779	III	119.15
	पिपलोद			सोनपुर	791	III	178.53
				आंवलिया	789	III	99.22
				सुंदरदेव	788	III	81.92
				नागोत्तर	825	III	81.90
				जोशीनाला	823	III	107.15
				मोतीगढ़	839	III	152.62
				खारी	819	III	146.42
				करमाल	816	III	123.76

1	2	3	4	5	6	
			सावलीधड़	808	III	96.07
			गोगड़पुर	796	III	104.15
			चूनाखाल	806	III	91.57
			ढकोची	804	III	111.89
			कुम्हारखेड़ा	801	III	93.72
			आराखेड़ा	783	III	121.12
			सरमेसर	762	III	99.10
	पश्चिम कालीभीत		चिमईपुर	925, 928	III	90.89
			सिरालिया	926	III	76.24
			पिपलिया	915	III	93.52
			अम्बाड़ा	904	III	83.92
			मालूद	907	III	100.50
			कोटवारिया	900	III	98.10
			कारीदा	895	III	67.50
			पारानदी	878	III	82.42
			झिरपा	873	III	105.57
			दावनिया	864	III	104.62
			चाकरा	842	III	106.80
			गोलई	853	III	64.35
			करवानी	886	III	67.50
योग						5732.11

**वर्ष 2008-09 में पुनरुत्पादन समूह के अन्तर्गत चयन-सह-सुधार कार्यवृत्त (S.C.I.) में कराये जाने वाले
कार्यों की स्थलवार जानकारी—खण्डवा सा. वनमण्डल**

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कूप क्र./ कक्ष क्रमांक		रकबा (हेक्टेयर में)
			कूप क्रमांक/पातन श्रेणी	कक्ष क्रमांक	
1	2	3	4		5
1	पूर्व काली.	खातेगांव	V-Kalighodi	576	94.50
2		बागडा	V-Bagda	585	148.95
3		रोशनी	V-Bhagpura	630	118.58
4		रोशनी	V-Jhirpa	638	109.80
5		विक्रमपुर	V-Khategaon	560	136.85
6		माथनी	V-Kekadiya	555	100.36
7		बागडा	V-Mathni	566	120.23

1	2	3	4	5	
8	पूर्व काली.	ढोलगांव	V-Dholgaon	615	244.19
9		चाडिदा	V-Chattu-Battu	601	159.08
10	आंवलिया	टिमरनी	V-Kadwalia	485	116.54
11		भवरदी	V-Palaspur	483	97.90
12		गोलखेड़ा	V-Semlia	504	134.77
13		भोजूढाना	V-Aonlia	517	181.96
14		रानीझिरी	V-Golkheda	529	84.83
15		तावखेड़ी	V-Mahlu	532	109.03
16		तावखेड़ी	V-Vikrampur	541	124.52
17		तावखेड़ी	V-Tawkhedi	542	145.62
	अमुल्ला	सीताबेडी	I-Bhilakhedi	752	109.53
		बोरखेडा रा.	I-Dhakna	757	83.25
		उ. बोरखेडा	I-Borkheda	760	128.67
		ताल्याधड़	I-Talyadhad	775	66.45
		ताल्याधड़	I-Borkheda	776	88.22
		ताल्याधड़	I-Talyadhad	779	98.45
		सीताबेडी	II-Bhilaikheda	752	100.12
		ताल्याधड़	II-Dhakna	777	89.77
		बोरखेडा रा.	II-Borkheda	758	78.97
		ताल्याधड़	II-Zhadikheda	775	140.90
		ताल्याधड़	II-Talyadhad	770	120.35
		ताल्याधड़	II-Amulla	779	98.22
	पिपलोद	झारीखेड़ा	I-Sonpura	791	209.12
		रेहटिया	I-Aonlia	789	115.42
		आंवलिया	I-Sunderdev	788	66.37
		गोगईपुर	I-Nagottar	836	147.81
		सुंदरदेव	I-Joshinala	823	111.12
		धामा	I-Motigadh	839	99.67
		धामा	I-Khari	819	87.75
		खारी	I-Karmal	817	140.30
		आराखेड़ा	I-Sawlidhad	808	59.40
		आराखेड़ा	I-Gogaiपुर	796	98.55
		चूनाखाल	I-Chunakhal	799, 806	122.00

1	2	3	4	5	
	पिपलोद	चूनाखाल	I-Dhakochi	805	67.27
		सांवलीधड़	I-Kumharkheda	801	101.20
		रीछड़ीखेड़ा	I-Adakheda	783	100.79
		सरमेश्वर	I-Sarmeshwar	762	107.32
		झारीखेड़ा	II-Sonpura	791	123.97
		रेहटिया	II-Aonlia	789	104.17
		आंवलिया	II-Sunderdev	788	73.12
		गोगईपुर	II-Nagottar	836	157.95
		सुंदरदेव	II-Joshinala	823	101.52
		धामा	II-Motigadh	839	104.57
		धामा	II-Khari	819	103.22
		खारी	II-Karmal	817	114.65
		आराखेड़ा	II-Sawlidhad	808	103.50
		आराखेड़ा	II-Gogaipur	796	108.67
		चूनाखाल	II-Chunakhal	806	95.64
		चूनाखाल	II-Dhakochi	805	57.37
		सांवलीधड़	II-Kumharkheda	801	89.39
		रीछड़ीखेड़ा	II-Adakheda	783	152.10
		सरमेश्वर	II-Sarmeshwar	762	114.10
	प. कालीभीत	कोटमाल	I-Chimaipur	924	99.10
		कोटवारिया	I-Siraliya	926	85.82
		अमबाड़ा	I-Pipliya	910	118.57
		मुहालखारी	I-Ambada	904	102.49
		मुहालखारी	I-Malud	907	102.77
		उदियापुर	I-Kotwaria	900	98.29
		कोटवारिया	I-Katida	895	78.07
		झिरपा	I-Paranadi	878	68.42
		झिरपा	I-Jhirpa	873	73.12
		दावनिया	I-Dawnia	864	117.26
		गुलाई	I-Chakra	848	164.70
		गुलाई	I-Golai	849	143.03
		झिरपा	I-Karwani	886	70.35
		कोटवारियामाल	II-Chimaipur	924	98.77
		कोटवारिया	II-Sllrallya	926	96.70

1	2	3	4	5	
	प. कालीभीत	अमबाड़ा	II-Plilplya	910	124.20
		मुहालखारी	II-Ambada	904	90.60
		मुहालखारी	II-Malud	907	93.12
		उदियापुर	II-Kotwarlla	900	94.26
		कोटवारिया	II-Katllda	895	84.65
		झिरपा	II-Paranadll	878	73.85
		झिरपा	II-Jhirpa	873	91.57
		दावनिया	II-Dawnlla	864	103.72
		गुलाई	II-Chakra	848	114.91
		गुलाई	II-Golall	849	139.50
		झिरपा	II-Karwanll	886	71.60
योग					9268.08

वर्ष 2009-10 के चराई के लिये वनग्रामों में बाहर पशुओं की चराई के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र का विवरण

परिक्षेत्र	वनग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल	5	
1	2	3	4	5	
खण्डवा	1	किरगांव	229	364.500	
	2	कमलिया	213 बी	184.680	
	3	आंवलिया	221	401.980	
पुनासा	4	बायफल	287	233.825	
	5	हंतिया	293	415.125	
	6	भवरला	297	319.140	
	7	टाकली	300	325.215	
	8	सुकवा	271	315.655	
मूंदी	9	चिकढालिया	315	515.135	
	10	टीकारी	321	187.515	
	11	भोगानी	339	206.955	डूब में
	12	खामखेडा	344	226.800	डूब में
	13	बलवाडा	360	270.945	डूब में
	14	जूनापानी	370	567.060	डूब में
	15	धारीकोटला	365	42.938	डूब में
	16	जमोठी	374	74.520	डूब में
बलडी	17	सरई	377	163.215	डूब में
	18	दरकली	400	231.860	डूब में

1	2	3	4	5	
चांदगढ	19	सिरकिया	479	149.455	
	20	बाकापलास	438	187.515	डूब में
	21	माथनी	423	106.275	डूब में
आंवलिया	22	अंधारवाडी	488 बी 485 बी	211.410	
	23	भेटखेडा	452	84.240	
	24	तावखेडी	361	536.220	
	25	रानीझिरी	369	404.190	
	26	गोलखेडा	370	769.905	
	27	सेमलिया	301	601.435	
	28	पलासपुर	397 बी	121.480	
	29	कदवालिया	400 बी	168.865	
	30	बिचपुरी	371	249.085	
	31	अम्बाखाल	408 बी	168.754	
पू. का. भी.	32	आंवलिया	409	684.150	
	33	भागपुरा	382 बी 381 बी 413	541.080	
	34	चाडिदा	304	328.455	
	35	चट्टू-बट्टू	313	364.500	
	36	झिझरी	313	484.990	
	37	माथनी	333	310.635	
	38	केकडिया	336	253.935	
	39	विक्रमपुर	348	315.900	
	40	बागडा	422	401.900	
	41	ढोलगांव	436	320.355	
सिंगाजी	42	मोरूद	291 बी 293	570.240	डूब में
	43	हरवंशपुरा	480 बी	197.235	
अमुल्ला	44	बोरखेडा	ई/180	314.800	
	45	ताल्याधड़	ई/193, 194, 195	2179.700	
प. कालीभीत	46	कोटवारिया	258, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 255, 256, 257, 520, 484, 485, 486, 474, P /109, 110, 111, 112	5317.300	

1	2	3	4	5	
प. कालीभीत	47	चिमईपुर	263A, 264, F/263 B	1146.800	
	48	गुलाई	506, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 502, 503, 504, 505, 487, 488, 489, 490.	4728.800	
	49	चाकरा	501, 507, 510, 511, 512, 513.	1985.800	
	50	झिरपा	476, 477, 480, 426, 481, 482, 483, 491, 439, 440, 441.	3080.700	
	51	दावनिया	495, 496, 497, 498	1569.000	
	52	दिदम्दा	437, 438, 493, 494, 492.	1591.800	
	53	बकार्जुन	499, 500, 509, 508	1119.300	
	पिपलोद	54	गदड़ियाखेड़ा	203, 206	1224.100
		55	आराखेड़ा	234, 235, 224, 225	2509.800
		56	चूनाखाल	232, 233	1156.200
57		सावलीखेड़ा	228, 229, 226, 227	1002.000	
58		आंवलिया	214, 215, 219	1238.800	
59		गोगईपुर	222, 240, 241, 522, P/115	1955.200	
60		सुंदरदेव	223, 238, 239	1970.400	
61		झारीखेड़ा	199, 217	1268.200	
62		नागौतार	218, 220, 221	2306.700	
63		सरमेश्वर	188, 189, 190	1664.800	
64		ढाकना	177, 197, 198	1026.700	
65		धामा	242, 243, 244	1497.000	
योग			13579.267		

राजस्व वनक्षेत्रों में चराई से प्रतिबंधित क्षेत्र 2005-2006

तहसील	परिक्षेत्र	ग्राम	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4
खण्डवा	पुनासा	गुंजारी	98.390
	सिंगाजी	सिवना	15.900
	खण्डवा	देशगांव	148.920
पुनासा	पुनासा	नांदखेडा	26.470
	पुनासा	अंजनियाकला	43.770
हरसूद	सिंगाजी	मेढापानी	25.590
-,,-	सिंगाजी	दगडकोट	22.020
-,,-	सिंगाजी	जामन्या/आशापुर	25.680
-,,-	सिंगाजी	कालाआम कला	61.940
-,,-	बलडी	कुक्शी	78.510
-,,-	आंवलिया	टिमरनी	65.620
-,,-	सिंगाजी	तोरनिया	27.000
-,,-	सिंगाजी	रामपुरी	49.070
-,,-	सिंगाजी	पाडल्या	30.270
-,,-	सिंगाजी	डाबिया	55.192
-,,-	सिंगाजी	खोरदा	29.010
-,,-	सिंगाजी	खोकरिया	14.130
-,,-	सिंगाजी	कालाआमखुर्द	53.610
-,,-	सिंगाजी	जामनिया	161.760
-,,-	सिंगाजी	पलकना	18.850
-,,-	सिंगाजी	मांडला	72.160
-,,-	सिंगाजी	खमलाय	26.870
-,,-	सिंगाजी	गुलरढाना	33.140
-,,-	आंवलिया	बाराकुण्ड	58.640
-,,-	सिंगाजी	मलगांव	117.050
-,,-	सिंगाजी	रतनपुर	51.510
-,,-	सिंगाजी	मोहन्यामाल	67.220
-,,-	सिंगाजी	दमदमा	40.000
-,,-	सिंगाजी	बोरीबांदरी	74.000
-,,-	सिंगाजी	डोटखेडा	38.000
-,,-	सिंगाजी	बैलवाडी	20.000
-,,-	सिंगाजी	मोजवाडी	112.000
-,,-	सिंगाजी	देवल्दी	35.000
-,,-	सिंगाजी	पिपलढोला	149.680
योग . .			1946.972

1	2	3	4
	खण्डवा	अत्तर	20.050
	खण्डवा	बामझर	34.470
	खण्डवा	बेडियाखुर्द	207.470
	मूंदी	पालसूदमाल	30.320
	खण्डवा	टोकरखेडा	28.990
	खण्डवा	केनूद	33.510
	मूंदी	अंजनियाखुर्द	101.690
	खण्डवा	भमोरी	17.430
	खण्डवा	ढोरानी	27.805
	मूंदी	सिधखाल	17.060
	खण्डवा	सिरा	29.370
	पुनासा	नांदखेडा	130.620
	खण्डवा	देलगांव	36.000
	खण्डवा	फिफरीमाल	19.000
	सिंगाजी	अमलपुरा	33.440
	सिंगाजी	सहेजला	47.000
	मूंदी	सातमोहनी	27.440
	मूंदी	रोहणी	5.500
	मूंदी	उटडी	14.520
	खण्डवा	इंजलवाडा	32.500
	खण्डवा	खुटलाखुर्द	8.090
	पुनासा	बोरदड	25.660
	खण्डवा	कोदबार	19.130
	मूंदी	धामनगांव-I	86.160
	मूंदी	धामनगांव-II	31.670
	मूंदी	धामनगांव-III	24.470
	योग . .		1089.365

मूंदी परिक्षेत्र के कक्ष वर्ष 2001-2002 में चराई से प्रतिबंधित एन. व्ही. डी. ए.

रोपण वर्ष	रोपित क्षेत्र का नाम	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3
1989	342	70.000
1990	348	234.000
2000	329	50.000

1	2	3
2000	330	50.000
2001	329 ए	27.000
2001	पी 29	79.000
2001	330	115.000
2001	332	65.000
2001	319 ए	154.220
2001	314	110.000
योग ..		954.220

वर्ष 2002-2003 प्रतिबंधित क्षेत्र

परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
चांदगढ़	491	50.000	416	30.000
	480	50.000	492	30.000
	483	50.000	P 56	30.000
खण्डवा			451	247.000
	209	50.000	198	30.000
	212	50.000	246	30.000
	243	50.000	235	30.000
	241	30.000	196	10.000
	244	30.000	240	10.000
	197	30.000	206	30.000
	202	30.000	207	30.000
सिंगाजी	283	50.000	273	30.000
	278	30.000	282	30.000
	275	30.000	287	30.000
	281	50.000	282 A	332.000
	278 A	190.000	269	30.000
	295	30.000	285	
पुनासा			286	
	P 2	40.000	P 15	187.000
	295	30.000	305 B	90.000
	301	50.000	384	121.000
	265	60.000	278	30.000
	291	30.000	P 7	40.000
	298	270.000	289	30.000

1	2	3	4	5
मूंदी	300	30.000	P 32	30.000
	340	30.000	308	30.000
	342	30.000	P 33	30.000
	316	30.000	341	30.000
			342	-
			340	-
पूर्व कालीभीत	309	30.000		
	412	30.000		
	429	30.000		
	442	30.000		
आंवलिया	368	30.000		
	368	30.000		
बलडी	392	30.000		
	P 84	30.000		
	384	30.000		
योग ..		1670.000	योग ..	1577.000

एन. व्ही. डी. ए. के वनक्षेत्रों के हस्तांतरण से चराई प्रतिबंधित क्षेत्र वर्ष 2004-2005

वृक्षारोपण	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4
1999	मूंदी	338 भाग II	100.000
2000	मूंदी	228 भाग III	100.000
2001	मूंदी	314 भाग II	50.000
2001	मूंदी	314 भाग III	60.000
2001	आंवलिया	पी 98	184.000
2001	पूर्व काली.	431	100.000
2001	पूर्व काली.	332	125.000
2000	सिंगाजी	294 भाग III	50.000
2001	-,,-	294 भाग III	120.000
1999	-,,-	296 भाग III	75.000
2001	-,,-	296 भाग III	80.000
1997	-,,-	274 भाग II	200.000
1999	-,,-	274 भाग III	50.000
2000	-,,-	274 भाग I	100.000
2001	-,,-	274 भाग I	314.020

1	2	3	4
1997	सिगाजी	275भाग II	50.000
1999	-,,-	275भाग III	100.000
2001	-,,-	275भाग I	245.005
2001	-,,-	283	12.000
2001	बलडी	391, 392	200.000
2001	मूंदी	335	28.000
1999	-,,-	337 ए I	100.000
1999	-,,-	337 ए II	50.000
2000	-,,-	337 ए III	60.000
2000	-,,-	337 ए I	40.000
1997	सिगाजी	सिवना	15.900
	पुनासा	नांदखेडा II	16.000
1990		नांदखेडा I	114.000
1990		गुन्जली I	45.000
1994		गुन्जली II	50.000
1994		फिफरीमाल	19.000
योग . .			2852.925
1989	मूंदी	अंजनियाखुर्द II	12.000
1989		अंजनियाखुर्द III	27.000
1989		धमनगांव/अंजनियाकला	119.000
1989		अंजनियाखुर्द I	29.400
1990		अंजनियाखुर्द IV	28.000
1990		सिंघखाल	17.000
1990		धमनगांव II	30.000
1994		तेलयामाल	30.000
योग . .			292.400
1989	खण्डवा	केनूद	34.000
1990		टोकरखेडा	41.000
1990		भमोरी	12.000
1990		ठोरानी	27.000
1990		बामझर	36.000
1990		अत्तर	19.000
1990		सिर्रा	30.000
1990		बेडियाखुर्द I	157.000
1990		बेडियाखुर्द II	58.000
1991		देशगांव I	96.500
1991		देशगांव II	54.590
1991		देलगांव	36.000
योग . .			601.090
महायोग . .			3746.415

1	2	3	4
31-12-03 को समाप्त होने वाले रोपण			
	पुनासा	नांदखेडा III	20.000
	सिंगाजी	अमलपुरा	32.910
1997	मूंदी	343	115.000
2000		329 I	50.000
2001		330 I	50.000
1993	खण्डवा	198	400.000
1993		P-225	68.310
1993		228	165.000
1993		195 (I)	111.000
1993		226	165.000
1992		210	221.000
1992		232 II	236.000
1994		228 (II)	40.000
1994		195 (II)	40.000
1994		P-228 (II)	35.000
1997		195 IV	237.000
1997		228 IV	173.000
1994		236 III	95.000
1993		228 I	150.000
	खण्डवा	195 II	35.000
		228 II	45.000
योग			2484.220
31-12-04 में समाप्त होने वाले रोपण			
2001	मूंदी	332	65.000
2001		329/A /2A	27.000
2001		330 II	92.000
2001		P 29	79.000
योग			263.000
वर्ष 2003-04 में बिगड़े वनों का सुधार कार्य की जानकारी जिनमें प्रथम वर्ष के कार्य किये गये हैं			
परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	योजना का नाम
1	2	3	4
खण्डवा	196	30.000	10-2406 वन आयोजना
	225	50.000	7563 अतिक्रमण
	216	50.000	व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण
	202	50.000	प्रथम वर्ष के कार्य

1	2	3	4	
खण्डवा	210	50.000		
	211	50.000		
	223	50.000		
सिंगाजी	295	30.000		
	273	50.000		
बलडी	309 A	30.000		
	396	30.000		
	389	50.000		
	P-84	30.000		
	योग	550.000		
चांदगढ़	483	50.000	41-2406 आदिवासी क्षेत्र	
	480	50.000	उपयोजना	
	491	50.000	बिगड़े वनों का सुधार प्रथम	
	309	50.000	वर्ष का कार्य.	
	योग	200.000		
खण्डवा	245	30.000	64-2406 अनुसूचित	
	235	50.000	जनजाति के लिये विशेष	
	207	30.000	घटक योजना बिगड़े वनों का सुधार	
	P 56	30.000	प्रथम वर्ष का कार्य.	
चांदगढ़	416 A	30.000		
	492	30.000		
	योग	200.000		
आंवलिया	369 (520)	25.000		
	योग	25.000		
वर्ष 2004-05 में वृक्षारोपण किये जाने वाले कक्षों की जानकारी				
परिक्षेत्र	उप परिक्षेत्र बीट	रोपण स्थल कक्ष	क्षेत्रफल	
1	2	3	4	
खण्डवा	किरगांव	किरगांव	229	10.000
	अत्तर	बामझर	242	5.000
	भकराडा	भकराडा	209	10.000
	गजवाडा	करोन्द	222	5.000
	देवला	टिटगांव	201	10.000
	देवला	रोहणी	240	5.000

1	2	3	4	
खण्डवा	देवला	देवला	198	5.000
	गजवाडा	गजवाडा	236	5.000
	कोलगांव	कमलिया	221, 213	10.000
	गजवाडा	केसून	206	10.000
	गजवाडा	गजवाडा	234	5.000
मूंदी	मूंदी	जलवा	P 32	30.000
	मूंदी	बोरानी	P 33	30.000
	मूंदी	गोंडखेडा	342	30.000
आंवलिया	गोलखेडा	रानीझिरी	369	25.000
योग			195.000	
खण्डवा	रोपण वर्ष 2002	इंजलवाडा		32.000

वर्ष 2005-06 में वृक्षारोपण किये जाने वाले क्षेत्रों की सूची

क्रमांक	परिक्षेत्र	रोपण स्थल का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	
1	2	3	4	5	
1	खण्डवा	भकराडा	34 (209)	10.000	
2		भकराडा	34 (209)	10.000	
3		टेंभी	07 (196)	10.000	
4		टेंभी	08 (197)	10.000	
5		केसून	25 (206)	10.000	
6		गजवाडा	21 (236)	10.000	
7		गजवाडा	24 (234)	10.000	
8		गजवाडा	22 (235)	10.000	
9		किरगांव	45 (227)	10.000	
10				14 (243)	10.000
11				04 (245)	10.000
योग			110.000		

बिगड़े वनों का सुधार वर्ष 2005-06

क्रमांक	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4
1	खण्डवा	7	40.000
		8	40.000
		12	30.000
		29	50.000
		16	50.000

1	2	3	4
	खण्डवा	45	30.000
		15	50.000
		25	50.000
		36	40.000
		65	50.000
		68	50.000
		P-54	30.000
		51	30.000
		59	30.000
		60	30.000
		योग खण्डवा	600.000
2	सिंगाजी	464	30.000
		452	30.000
		477	30.000
		463	30.000
		457	30.000
		योग सिंगाजी	150.000
3	पुनासा	222	0.000
		214	0.000
		205	30.000
		योग पुनासा	30.000
4	मूंदी	76	50.000
		74	50.000
		71	26.500
		72	46.450
		84, 85	35.770
		81, 83	30.430
		101	25.430
		योग मूंदी	264.580
		महायोग	1044.580

वर्ष 2006-07 पुर्नस्थापना समूह अन्तर्गत आर. डी. एफ.

क्रमांक	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4
1	खण्डवा	4	50.000
		6	32.000

1	2	3	4
	खण्डवा	11	50.000
		14	40.000
		34	50.000
		46	50.000
		54	50.000
		60	50.000
		65	50.000
योग :	खण्डवा		422.000
2	सिंगाजी	452	50.000
		674	47.000
		477	30.000
		476	30.000
		457	30.000
		463	30.000
योग:	सिंगाजी		217.000
3	मूंदी	74	48.820
		75	50.000
		80	30.000
योग :	मूंदी		128.820
4	पुनासा	222	50.000
		206	32.280
योग :	पुनासा		82.280
महायोग :			850.100

(आई.एस.पी.सी.ए.)

इंदिरा सागर परियोजना के डूब में आने वाले क्षेत्र की जानकारी जो चराई से प्रतिबंधित है

(वर्ष 2007-08)

क्रमांक	परिक्षेत्र	सम्मिलित कक्ष क्रमांक	नया कक्ष क्रमांक	कुल क्षेत्र (5+ 6)
1	2	3	4	5
1	मूंदी	331	128	325.400
2		332	127	387.250
3		329	122	228.180
4		330	123	253.970
5		333	126	364.460

1	2	3	4	5
6	मूंदी	P-29	P-121	0.700
7			120	77.160
8		334	125	252.680
9		335	124	375.160
10		336	119	525.680
11		349	114	328.420
12		350	113	395.430
13		351	112	391.070
14		357	118	423.600
15		338	117	452.450
16		347	116	302.670
17		348	115	298.750
18		346	109	417.370
19		339	108	207.600
20		344	107	246.360
21		345	106	270.380
22		357	105	343.800
23		352	101	356.980
24		353	111	333.040
25		365	102	40.780
26		354	110	389.000
27		355	103	369.970
28		366	100	345.060
29		364	99	264.280
30		356	104	255.310
31		360	86 A	19.370
32			86 B	254.750
33		361	87	313.280
34		362	88	373.560
35		358	85	296.500
36		359	84	330.250
37		P-35	P-83	3.040
38			82	36.090
39		P-36	81	72.860
40		363	98	292.940

1	2	3	4	5
41	मूंदी	368	97	275.570
42		369	89	392.000
43		370	90	474.710
44		367	96	386.980
45		373	95	329.100
46		374	94	72.780
47		375	93	297.880
48		371	91	358.170
49		372	92	237.760
		योग . .		14040.550
50	बलडी	409	439	383.550
51		P-91	P-436	8.600
52			437	20.060
53		410	439	432.930
54		411	440	375.320
55		P-96	441	24.300
56			P-442	14.360
57		407	421	261.780
58		408	423	203.690
59		P-88	P-417	0.750
60			418	37.490
61		P-89	419	45.730
62			P-420	1.180
63		P-90	P-424	2.550
64			425	19.590
65		406	422	177.530
66		P-80	415	205.930
67		P-81	416	175.360
68		P-87	P-409	1.510
69			410	29.890
70		P-92	428	32.180
71			P-429	16.560
72		P-93	427	36.520
73		P-95	426	319.870
74		P-59	355	225.800
75			P-356	6.300

1	2	3	4	5
76	बलडी	P-60	P-357	13.900
77			354	317.370
78		P-61	P-358	15.230
79			359	304.610
80		P-62	353	358.040
81		P-63	P-351	14.910
82			352	100.580
83		P-64	350	213.210
84		P-65	360	48.610
85		P-66	P-361	4.600
86			P-362	3.650
87			363	157.810
88		P-67	364	180.910
89		P-68	P-365	25.690
90		P-69	P-366	19.170
91			367	65.060
92		P-70	368	189.420
93		P-71	369	127.830
94		P-72	370	94.840
95			P-371	32.540
96		380	434	338.460
97		378	445	351.590
98		P-97	P-443	4.590
99			444	53.010
100		376	447	389.850
101		377	446	163.210
102		379	435	344.000
103		382	432	243.120
104		P-94	P-430	17.740
105			431	166.940
106		381	433	239.270
107		P-82	411	217.530
108		P-83	412	197.460
109		P-86	407	119.290
110			P-408	4.270

1	2	3	4	5
111	बलडी	P-84	413	333.660
112		P-85	406	166.820
113		388	395	415.820
114		403	398	106.620
115		398	385	189.010
116		401	396	220.480
117		402	397-A	76.980
118			397-B	170.340
119		P-76	377	56.580
120			P-378	23.630
121			379	85.830
122		P-77	372	239.920
123			P-373	21.150
124		P-78	P-374	25.200
125			375	82.730
126		387	401	271.110
127		404	400	312.440
128		405	399	191.490
129		P-75	376	224.680
130		P-79	414	148.620
131		P-74	P-380	51.980
132			381	77.430
133		P-73	382	386.750
134		400	383	319.660
135		399	384	245.050
136		396	387	293.620
137		397	386	274.330
138		393	389	274.660
139		394	388	275.340
140		392	390	255.350
141		391	391	279.440
142		395	394	263.600
143		389	393	361.650
144		390	392	428.580
145		386	402	244.620

1	2	3	4	5
146	बलडी	383	405	242.540
147		384	404	317.280
148		385	403	377.940
योग ..				16530.570
149	चौदगढ़	429	285	244.310
150		430	286	250.480
151		440	247	278.670
152		442	248	282.440
153		443	249	265.920
154		447	245	402.520
155		444	242	288.680
156		445	243	294.470
157		446	246	341.700
158		436	296	315.410
159		437	295	302.000
160		438	294	1888.860
161		439	293	293.050
162		431	287	448.810
163		433	290	260.370
164		434	292	345.150
165		435	297	389.320
166		441	288	214.060
167		422	299	360.460
168		423	298-A	17.170
169			298-B	166.180
170		424	291	546.470
171		P-47	330	265.090
172			P-331	35.400
173		P-37	333	205.740
174			P-334	37.960
175		P-38	P-335	98.340
176			336	122.630
177		P-39	337	153.240
178			P-338	76.430
179		P-46	332	262.350
180		P-40	P-339	4.950

1	2	3	4	5
181	चौदगढ़		340	170.170
182		P-41	345	183.150
183			P-346	2.160
184		P-42	P-347	17.480
185			348	124.680
186			P-349	11.390
187		P-43	P-343	38.550
188			344	132.090
189		P-44	342	129.600
190		P-53	328	225.230
191		P-48	326	175.950
192			P-327	3.870
193		P-49	320	196.130
194		P-50	324	55.230
195			P-325	80.430
196		P-51	P-321	281.150
197			P-322	13.800
198			P-323	10.790
199		P-52	319	186.040
200		426	302	288.830
201		416	306	252.370
202		420	307	252.570
203		425	301	297.600
204		414	317	257.160
205		415	308	295.670
206		421	300	227.720
207		412	318	250.510
208		413	316	336.440
209		P-57	P-313	29.910
210			P-314	23.290
211			315	230.500
212		P-58	311	39.790
213			P-312	13.000
214		475	280	408.300
योग ..				14700.180

1	2	3	4	5
215	सिंगाजी	287	460	367.270
216		290	457	412.960
217		291	456	319.750
218		294	453	369.540
219		295	4522	641.550
220		288	459	560.620
221		289	458	373.030
222		297	450	528.440
223		298	449	524.100
224		296	451	451.370
225		292	445-A	328.780
226			445-B	104.480
227		293	454	472.980
228		299	448	477.590
229		282	465	582.600
230		283	464	319.830
231		280	467-A	489.510
232		281	466	288.000
233		278	469	607.480
234		277	470	260.120
235		279	468	357.140
236		276	471	716.460
237		272	475	274.500
योग . .				9828.100

(ओ.एस.पी.सी.ए.)

ओंकारेश्वर परियोजना के डूब में आने वाले क्षेत्र की जानकारी जो चराई से प्रतिबंधित है

(वर्ष 2007-08)

ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	नया कक्ष क्रमांक	कक्ष का कुल	डूब वनक्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा सा.	पुनासा सा.	पी 9	212	93.240	57.995
2			पी 10	पी 213, 214	166.570	23.880
3			पी 11	215	295.100	74.547
4			पी 12	पी 216, 217	243.140	79.650
5			पी 13	218	210.430	0.000

1	2	3	4	5	6	7
6	खण्डवा सा.	पुनासा सा.	पी 14	219	238.280	26.770
7			पी 15	220, पी. 221	186.720	44.360
8			पी 16	222	180.650	56.125
9			पी 17	223	243.780	108.420
10			पी 18	224	209.740	45.900
11			पी 19	225	205.740	33.190
12			पी 20	228, पी. 229	346.890	146.250
13			पी 21	226, पी. 227	252.850	36.040
योग . .			13		2873.130	733.127
14	खण्डवा सा.	पुनासा सा.	304	158	400.545	64.748
15			303	159	428.490	98.416
16			285 बी	163	330.885	10.036
17			284	164	270.540	27.599
18			283	165	460.485	136.618
19			282 बी	166	527.715	62.805
20			281 बी	188	500.580	74.136
21			276	190	547.965	185.665
22			277 ए, 277 बी	189	287.955	35.935
23			275 बी	191	344.655	87.571
24			274, 274 बी	192	405.405	139.046
25			272	194	429.705	122.905
26			273, 273 ए, 273 बी	193	370.575	64.425
27			264	199	511.515	286.026
28			265 ए, 265 बी	200	327.645	178.139
29			266 ए	202	403.785	37.635
30			267	201	386.180	120.432
31			268	197	488.240	426.706
32			270	196	110.160	50.180
33			271	195 ए, बी	315.900	225.810
34			291	175	428.895	12.545
35			292	176	146.610	4.527
36			269	178	349.920	25.000
37			293	172 ए, बी	415.125	3.763
38			पी 7	204	281.110	25.180
39			पी 8	203	245.240	60.216
40			पी 22	198	119.140	57.707

1	2	3	4	5	6	7
41	खण्डवा सा.	पुनासा सा.	पी 26	181	264.990	10.036
42			पी 27	पी 179, 180	181.140	15.054
योग . .			29		10281.095	2648.861
कुल योग . .					13154.225	3381.988
43	खण्डवा सा.	चौदगढ़ सा.	452	230 ए, बी	84.240	34.700
44			451	231	243.000	4.870
45			453	232	234.495	1.460
46			450	240	338.985	89.500
47			449 बी	241	449.550	43.970
48			448	244	202.500	25.365
49			447 ए	245	417.150	23.100
योग . .			7 कक्ष		1969.920	222.965
50	खण्डवा सा.	मूंदी सा.	328 बी	129	183.870	24.280
51			325 बी	135	544.303	33.345
52			324, 324 बी	136	498.573	80.288
53			323	137	527.710	113.309
54			322 बी	140	339.532	46.133
55			321	141	187.370	100.521
56			320 बी	142	273.568	29.622
57			312 बी	146	301.320	5.503
58			311	143	276.315	139.370
59			310	144	283.280	60.701
योग . .			11 कक्ष		3415.841	633.072
वनमण्डल योग . .			60 कक्ष		18539.986	4238.025
पुनासा परिक्षेत्र (12 राजस्व ग्राम) राजस्व वनक्षेत्र						478.230
वनमण्डल योग . .						4716.255

वर्ष 2005-06 में चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची

क्रमांक	योजना का नाम	बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	10-2406 (7882) कार्य आयोजना का क्रियान्वयन.	टेमी	07 (196)	40.000
	बिगड़े वनों का सुधार	टेमी	08 (197)	40.000
	वर्ष 2005-06	रोहणी	12 (241)	30.000

1	2	3	4	5
1	वर्ष 2005-06	टिटगांव	29 (201)	50.000
		देवला	09 (198)	50.000
		द. मातपुर	45 (227)	30.000
		जामन्या	15 (238)	50.000
		पू. केसून	25 (206)	50.000
		लखनगांव	36 (207)	40.000
		जामन्या	65 (219)	50.000
		जामन्या	68 (220)	50.000
		कमलिया	P-54 (228)	30.000
		कावेश्वर	51 (210)	30.000
		पू. बलियापुरा	59 (216)	30.000
		पू. बलियापुरा	60 (225)	30.000
10-2406 सुधार उपचार		उ. गजवाड़ा	21-I	182.320
		कावेश्वर	39-I	95.230
		द. बलियापुरा	49-I	121.240
		करोंद	61-I	142.930
		उ. गजवाड़ा	21-II	138.420
		कावेश्वर	39-II	125.650
		द. बलियापुरा	49-II	125.650
		करोंद	61-II	77.170
		योग . .		1596.490

वर्ष 2005-06 में रोपण किये गये रोपण क्षेत्रों की चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची

क्रमांक	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4
1	पुनासा	163 (285)	150
		169 (288)	150
		177 (P-28)	50
		180 ((P-27)	100
		181 ((P-26)	150
		181A ((P-281)	100
		188 B	100
		199 (264)	100
		200 (266)	50
		201 (267)	100
		202 (266)	150
		203 (P-8)	100
		योग . .	1300

वर्ष 2006-07 में रोपण किये गये रोपण क्षेत्रों की चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची (RDF)

क्रमांक	परिक्षेत्र	रोपण वर्ष	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	बीट का नाम
1	2	3	4	5	6
1	पिपलोद	2000-01	205	51	मिरीखेड़ा
2		2004-05	205	100	-,,-
3		2002-03	207	50	-,,-
4		2005-06	205	56	-,,-
5		2003-04	205	50	-,,-
6		2001-02	205	125	-,,-
7		2006-07	207	50	-,,-
8		2004-05	206	100	गदड़ियाखेड़ा
9		2002-03	E/205	50	-,,-
10		2002-03	E/208	50	रिछीखेड़ा
11		2002-03	E/210	50	आराखेड़ा
12		2003-04	228	50	-,,-
13		2003-04	230	50	ढकोची
14		2002-03	230	50	-,,-
15		2000-01	230	75	-,,-
16		2004-05	230	50	-,,-
17		2002-03	E/231	50	चुनाखाल
18		2004-05	233	50	-,,-
19		2004-05	216	50	रेहटिया
20		2002-03	E/216	50	गोगईपुर
21		2002-03	221A	100	नोगोनार
22		2002-03	220 A	50	सुंदरदेव
23		2003-04	243	200	धामा
24		2002-03	243	114	-,,-
25		2004-05	P/113	50	-,,-
26		2000-01	243	50	-,,-
27		2004-05	254	100	खारी
28		2001-02	254	100	-,,-
29		2000-01	251	100	-,,-
30		2001-02	E/189	50	सरमेश्वर
31		2002-03	E/191	50	-,,-
32		2002-03	E/192	50	देवली
33		2002-03	E/177	50	ढाकना
34		2003-04	E/177	50	-,,-
35		2002-03	E/217	5	नोगोनार

1	2	3	4	5	6
36	पिपलोद	2005-06	E/223	10	सुंदरदेव
37		2005-06	E/226	100	30 आराखेड़ा
38		2005-06	E/235	100	-,,-
39		2005-06	E/239	100	सुंदरदेव
40		2005-06	E/244	100	धामा
41		2005-06	E/252	100	खारी
42		2005-06	E/251	100	-,,-
43		2005-06	E/238 A	100	सुंदरदेव
44		2006-07	E/252	100	खारी
45		2006-07	E/246	100	धामा
46		2006-07	E/251	100	खारी
47		2006-07	E/236	100	द. आराखेड़ा
48		2006-07	E/237	100	-,,-
49		2006-07	E/226	50	उ. आराखेड़ा
50		2005-06 (एफ.डी.ए. क्षेत्र)	E/238	50	सुंदरदेव
51		2005-06 (एफ.डी.ए. क्षेत्र)	E/230	50	ढोरानी
योग ..				3686	

चराई वर्ष 2006-07 में पूर्ण बंद कूपों की सूची

क्रमांक	परिक्षेत्र	कूप क्रमांक	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	पिपलोद	XI गोगईशर	E/238	320.3	
		XI सरमेसर	E/192	126.3	
		XI बमूतला	E/177	102.3	
योग				548.9	

चराई वर्ष 2006-07 में चराई हेतु प्रतिबंधित वृक्षारोपण की सूची

क्रमांक	परिक्षेत्र	रोपण वर्ष	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	अमुल्ला	2002-03	E/547	100	
		2002-03	E/31	50	
		2002-03	E/185	50	
		2002-03	E/184	50	

1	2	3	4	5	6
1	अमुल्ला	2002-03	E/202	50	
		2002-03	E/69	50	
		2002-03	E/70 A	50	
		2002-03	E/63	50	
		2002-03	E/53	50	
		2002-03	E/52	50	
		2002-03	E/55	50	
		2004-05	E/66	50	
		2004-05	E/69	50	
		2004-05	E/196 A	50	
		2004-05	E/52	50	
		2004-05	E/546	50	
		2004-05	E/547	50	
		2004-05	E/35	50	
		2004-05	E/69	50	
		2004-05	E/65	50	
		2004-05	200	50	
		2004-05	58	50	
		2004-05	64	50	
		2004-05	54	50	
		2004-05	61	50	
		2004-05	187	50	
		2004-05	5	188	
		2005-06	E/69	50	
		2005-06	E/66	50	
		2005-06	E/65	50	
		2005-06	E/35, Part I	50	
		2005-06	E/35, Part II	50	
		2005-06	E/34	50	
		2005-06	E/48, Part I	50	
		2005-06	E/48, Part II	50	
		2005-06	E/36	50	
		2005-06	E/52	50	
		2006-07	E/181	50	

1	2	3	4	5	6
1	अमुल्ला	2006-07	E/65	50	
		2006-07	E/28	50	
		2006-07	E/29	50	
		2006-07	E/35 Part I	50	
		2006-07	E/35 Part II	50	
		2006-07	E/48	50	
		2006-07	E/69	50	
		2006-07	546	50	
		2006-07	547	50	
		2006-07	193	50	
		2006-07	59	50	

योग . . 3797

चराई वर्ष 2006-07 में पूर्ण बंद कूपों की सूची

क्रमांक	परिक्षेत्र	बीट	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	अमुल्ला	हंडिया	E/181	50	
		भिलाईखेड़ा	E/65	50	
		डेहरिया	E/28	50	
		कुमण	E/29	50	
		हीरापुर	E/35 Part I	50	
		हीरापुर	E/35 Part II	50	
		छिरवां	E/48	50	
		साजनी	E/69	50	
		गोलखेड़ा	546	50	
		गोलखेड़ा	547	50	
		ताल्याखेड़ा	193 A	50	
		घाघरला	59	50	

योग . . 600

चराई वर्ष 2006-07 में चराई हेतु प्रतिबंधित वृक्षारोपण की सूची

क्रमांक	परिक्षेत्र	रोपण वर्ष	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	कालीभीत	1999-2000	445	75	
		1999-2000	260	75	

1	2	3	4	5	6
1	प. कालीभीत	1999-2000	P/111	100	
		2000-01	P/112	50	
		2000-01	246	50	
		2000-01	447	50	
		2001-02	448	50	
		2001-02	494	50	
		2001-02	473	50	
		2002-03	505	50	
		2002-03	470	50	
		2002-03	441	50	
		2002-03	496	10	
		2002-03	517	50	
		2002-03	495	50	
		2002-03	P/109	50	
		2002-03	469	50	
		2002-03	441	50	
		2004-05	264	50	
		2004-05	515	50	
योग ..				1060	

चराई वर्ष 2006-07 में पूर्ण बंद कम्पार्टमेंट की सूची

क्रमांक	परिक्षेत्र	बीट	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	प. कालीभीत	गुलरढाना	7	2477.40	
		मौजवाड़ी	4	1264.40	
		करवानी	8	1569.40	
		प. अम्बाड़ा	4	668.40	
		पूर्व अम्बाड़ा	4	1344.40	
		चिमईपुर	2	923.40	
		सिराल्या	3	1179.70	
		पिपल्या	2	826.40	
		मुहालखारी	5	1904.20	
		खोशीनाला	7	1775.60	
		दावनिया	7	2443.90	
		दिदम्दा	6	2016.10	

1	2	3	4	5	6
1	प. कालीभीत	गुलाई	7	1699.00	
		चाकरा	6	1989.80	
		ढिमरिया	8	2275.20	
		झिरपा पूर्व	3	1230.60	
		प. झिरपा	4	1774.40	
		म. झिरपा	4	1354.70	
योग . .				28717.90	

चराई वर्ष 2006-07 में पूर्ण बंद कूपों की सूची

क्रमांक	परिक्षेत्र	बीट	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	प. कालीभीत	6 चाकरा	408	244.40	
2		7 चाकरा	512	153.00	
3		8 चाकरा	408	341.00	
4		9 चाकरा	512	84.94	
5		10 चाकरा	510	189.90	
6		6 गुलाई	501	89.80	
7		7 गुलाई	501	230.05	
8		8 गुलाई	513	300.00	
9		9 गुलाई	513	162.90	
10		10 गुलाई	492	132.20	
11		6 पारानदी	485	170.60	
12		7 पारानदी	486	201.00	
13		8 पारानदी	505	53.30	
14		9 पारानदी	488	288.10	
15		10 पारानदी	480	250.40	
16		बी. झिरपा	4	755.50	
17		बी. मोराबारी	5	606.60	
18		सी. झिरपा	12	886.50	
19		सी. मोरानारी	7	637.00	
20		8, 10 मालूद	454, 463	311.00	
21		8 कछीदा	450	175.00	
22		अंबाड़ा	466	267.00	
23		8, 10 चिमईपुर	263	411.00	
24		8 पारानदी	513	264.00	
25		8 गुलाई	505	203.00	

1	2	3	4	5	6
26	प. कालीभीत	8 अंबाड़ा	446	256.00	
27		10 गुलाई	492	294.00	
28		10 पारानदी	480	292.00	
29		11 कटीदा	259	168.50	
30		11 गुलाई	514	103.20	
31		11 चिमईपुर	260	155.00	
32		7 मालूर	E/445	141.00	
33		7, 9 चाकरा	E/512	286.00	
34		7, 9 अम्बाड़ा	E/445	311.00	
35		7, 9 करिदा	E/449	294.00	
36		7, 9 गुलाई	E/501, 513	338.00	
37		7 पारानदी	E/486	216.00	
38		9 पारानदी	E/418	288.00	
39		9 मालूद	E/463	200.00	
40		9 चिमईपुर	E/263	189.00	
योग ..				10939.89	

खण्डवा परिक्षेत्र में 1-7-2006 को प्राप्त पंधाना वृत् के अन्तर्गत चराई से प्रतिबंधित क्षेत्र की जानकारी

क्रमांक	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	योजना का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	W/188	50.00	RDF 06-07	
2	W/193	50.00	RDF 06-07	
3	W/194	50.00	RDF 06-07	
4	P/190	75.00	RDF 01-02	
5	P/192	50.00	RDF 01-02	
6	P/194	40.00	RDF 01-02	
7	P/198	50.00	RDF 02-03	
8	P/189	50.00	RDF 02-03	
9	P/202	50.00	RDF 04-05	
10	P/201	50.00	RDF 05-06	
11	P/193	50.00	RDF 05-06	

चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की जानकारी

परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	योग रकबा (हेक्टर में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
बलड़ी	2002, 2003	392		30.00	
		384		30.00	
		P-84		30.00	

1	2	3	4	5	6
बलड़ी	2002, 2003	E-522	100.00		गोगईपुर
पिपलोद, गोगईपुर	2005	262.00		50.00	सिराल्या
प. कालीभीत	2006	263.00		50.00	जमनापुर

वर्ष 2007-08 चराई से प्रतिबंधित क्षेत्र

वर्ष 2007-08 में पुनर्स्थापना समूह के अन्तर्गत बिगड़े वनों के सुधार कार्य (RDF)

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	खण्डवा	भोंडवा	6	50.00
2	खण्डवा	टेमी	7	50.00
3	खण्डवा	टोकरखेडा	8	50.00
4	खण्डवा	देवला	9	50.00
5	खण्डवा	जामनिया	11	50.00
6	खण्डवा	बामझर	14	50.00
7	खण्डवा	खेडीकित्ता	34	50.00
8	खण्डवा	किरगांव	44	50.00
9	खण्डवा	मातपुर	45	50.00
10	खण्डवा	कावेश्वर	51	46.00
11	खण्डवा	दगडिया	54	50.00
12	खण्डवा	चिचलीखुर्द	68	50.00
13	खण्डवा	मांडवा	716	40.00
14	खण्डवा	मांडवा	717	40.00
15	खण्डवा	मांडवा	721	33.00
16	खण्डवा	मांडवा	722	40.00
17	खण्डवा	जामली	723	40.00
18	खण्डवा	जामली	724	28.00
19	खण्डवा	जामली	728	41.00
20	खण्डवा	जामली	731	50.00
योग खण्डवा . .				908.00
21	सिंगाजी	सेल्दा	459	30.00
22	सिंगाजी	मछौंडी	475	30.00
23	सिंगाजी	माथनी	463	30.00
24	सिंगाजी	द. करोली	457	27.30
25	सिंगाजी	पहेटिया	464	50.00
योग सिंगाजी . .				167.30

1	2	3	4	5
26	मूंदी	भमोरी	74	50.00
27	मूंदी	रोहणी	76	50.00
28	मूंदी	पालसूद	80	34.70
योग मूंदी . .				134.70
29	पुनासा	पंधिया	214	50.00
30	पुनासा	गुंजारी	214	50.00
योग पुनासा . .				100.00
31	अमुल्ला	पिपलिया	742	50.00
32	अमुल्ला	पिपलिया	743	50.00
33	अमुल्ला	पिपलिया	741	50.00
34	अमुल्ला	पिपलिया	747	25.00
योग अमुल्ला . .				175.00
35	पिपलोद	नागोतार	829	30.00
36	पिपलोद	पांगरा	968	24.00
योग पिपलोद . .				54.00
37	प. कालीभीत	ढिमरिया	854	30.00
38	प. कालीभीत	झिरपा	874	26.00
39	प. कालीभीत	कोटवारिया	897	21.00
योग प. कालीभीत . .				77.00
महायोग खण्डवा सा. वन मण्डल . .				1616.00

वर्ष 2007-08 में पुनरुत्पादन समूह के अन्तर्गत चयन-सह-सुधार कार्यवृत्त (S.C.I.)

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कूप क्र./ कक्ष क्रमांक		रकबा (हेक्टेयर में)
			कूप क्रमांक/पातन श्रेणी	कक्ष क्रमांक	
1	2	3	4	5	6
1	पूर्व काली.	खातेगांव	IV-Khaighodi	576	106.30
2		बागडा	IV-Bagda	590 A	137.93
3		रोशनी	IV-Bhagpura	630	151.34
4		रोशनी	IV-Jhirpa	638	82.80
5		खातेगांव	IV-Khatagoan	559	71.12
6		विक्रमपुर	IV-Kekadiya	556	104.83
7		माथनी	IV-Mathani	554	207.41

1	2	3	4	5	6
8	पूर्व काली.	ढोलगांव	IV-Dholgoan	612	164.92
9		बट्टू	IV-Chattu-Battu	610	139.68
10	आंवलिया	तावखेड़ी	IV-Vikrampur	539	128.12
11		भोजूढाना	IV-Aonliya	512	62.95
12		रानीझिरी	IV-Golkheda	529	109.84
13		गोलखेडा	IV-Semliya	505	129.84
14		तावखेड़ी	IV-Tavkhedi	542	122.44
15		रानीझिरी	IV-Mehlu	533	68.40
16		टिमरनी	IV-Kadvaliya	485	153.23
17		मोरगढी	IV-Palaspur	486 A	129.89
योग . .					2071.04

वर्ष 2007-08 में पुनरुत्पादन समूह के अन्तर्गत सुधार उपचार कार्यवृत्त (I. F. S.)

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कूप क्र./ कक्ष क्रमांक		रकबा (हेक्टेयर में)
			कूप क्रमांक/पातन श्रेणी	कक्ष क्रमांक	
1	2	3	4	5	6
1	खण्डवा	गजवाड़ा	IV-Titgoan	21	151.80
2		कावेश्वर	IV-Kamliya	39	117.83
3	सिंगाजी	रजूर	IV-Chhotatava	467 A	196.82
4		फेफरी	IV-Ashapur	473	264.03
5	मुंदी	चिकढालिया	IV-Chikdaliya	134, 147	134.94
6		सरल्या	IV-Chandel	117	144.73
7		चिकढालिया	IV-Jamkota	88, 89	215.31
8	पुनासा	पंथिया	IV-Mandhata	218, 219	158.49
9		हंतिया	IV-Paldi	191	190.35
10		इधावडी	IV-Sukava	194	106.20
11		बायफल	IV-Bayphal	160	127.73
12		बायफल	IV-Hantiya	168	159.32
13		रेहकलिया	IV-Dhawdi	157	135.68
14	बलडी	बरमलाय	IV-Barmalay	375, 376, 399, 414	113.90
15		सेमरुढ़	IV-Semdur	396, 392A, 398	135.88
16	चांदगढ़	अंधारवाड़ी	IV-Andharvadi	273	144.35
17		सिरकिया	IV-Sirkiya	264	125.02

1	2	3	4	5	6
18	चांदगढ़	पामाखेड़ी	IV-Pamakhedi	303	113.62
19		अंधारवाड़ी	IV-Mathani	332	109.63
20		पामाखेड़ी	IV-Bharnga	302	133.77
21		भेटखेड़ा	IV-Katarkuaa	235	158.28
22		भेटखेड़ा	IV-Bhentkeda	232	158.80
23	पूर्व काली.	चाडिदा	IV-Chadida	598	101.02
योग . .					3397.50

वर्ष 2007-08 में पुनर्स्थापना समूह के अन्तर्गत बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य (RDBF)

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कक्ष क्रमांक	कक्ष का रकबा	बांस क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	प.का.	प.झिरपा	878	346.16	135.9
2		ढिमारिया	854	297.51	220.9
3		ढिमारिया	879	255.46	140.64
4		ढिमारिया	881	276.51	208.8
5		ढिमारिया	880	217.44	51.33
6		करवानी	885	309.03	147.32
7		जोशीनाला	909	359.33	140.19
8		पू.अंबाडा	915	344.24	144.73
9		जोशीनाला	904	277.01	163.94
10		प.अम्बाडा	914	294.68	64.32
11		मुहालखारी	890	365.32	112.92
12		मुहालखारी	905	273.62	108.06
योग . .					1639.05
13	पिपलोद	खारी	817	696.29	349.69
14		खारी	818	624.92	237.49
15		धामा	819	911.33	311.71
16		धामा	820	772.91	169.79
योग . .					1068.68
महायोग . .					2708

वर्ष 2007-08 में वृक्षारोपण की जानकारी

क्रमांक	परिक्षेत्र	योजना का नाम	कक्ष/स्थल	रकबा
1	2	3	4	5
1	खण्डवा	आर. डी. एफ. क्षेत्र वृक्षारोपण	4	10
	-,,-		34	10
	-,,-		11	10
	-,,-		14	10
	मूंदी		74	10
	-,,-		76	10
	-,,-		76	10
	-,,-		80	10
	पुनासा		222	10
	-,,-		222	10
		योग . .	10 कक्ष	100
2.	अमुल्ला	मिश्रित वृक्षारोपण	979	50
	मूंदी		73	50
		योग . .	2 कक्ष	100
3	खण्डवा	ओंकारेश्वर	8	50
	-,,-	निधि से व्यय	712	50
	पुनासा		204	50
	प. कालीभीत		935	15
	-,,-		933	35
	-,,-		936	26.94
	अमुल्ला		744	50
	-,,-		745	50
	पिपलोद		829	50
	-,,-		962	50
		योग . .	10 कक्ष	426.94
		महायोग . .		626.94

वर्ष 2007-08 में पुनरुत्पादन समूह के अन्तर्गत सुधार उपचार कार्यवृत्त (I. F. S.) में कराये जाने वाले कार्यों की स्थलवार जानकारी

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कूप क्र./ कक्ष क्रमांक		रकबा (हेक्टेयर में)
			कूप क्र. /पातन श्रेणी	कक्ष क्रमांक	
1	2	3	4	5	6
1	खण्डवा	गजवाड़ा	IV-Titgoan	21	151.80
2		कावेश्वर	IV-Kamliya	39	117.83

1	2	3	4	5	6
3	सिंगाजी	रजूर	IV-Chhotatava	467 A	196.82
4		फेफरी	IV-Ashapur	473	264.03
5	मूंदी	चिकढालिया	IV-Chikdaliya	134, 147	134.94
6		सरल्या	IV-Chandel	117	144.73
7		चिकढालिया	IV-Jamkota	88, 89	215.31
8	पुनासा	पंथिया	IV-Mandhata	218,219	158.49
9		हंतिया	IV-Paldi	191	190.35
10		इधावडी	IV-Sukava	194	106.20
11		बायफल	IV-Bayphal	160	127.73
12		बायफल	IV-Hantiya	168	159.32
13		रेहकलिया	IV-Dhawdi	157	135.68
14	बलडी	बरमलाय	IV-Barmalay	375,376, 399,414	113.90
15		सेमरुद	IV-Semdur	396,392A, 398	135.88
16	चांदगढ़	अंधारवाडी	IV-Andharvadi	273	144.35
17		सिरकिया	IV-Sirkiya	264	125.02
18		पामाखेड़ी	IV-Pamakhedi	303	113.62
19		अंधारवाड़ी	IV-Mathani	332	109.63
20		पामाखेड़ी	IV-Bharnaga	302	133.77
21		भेटखेड़ा	IV-Katarkuaa	235	158.28
22		भेटखेड़ा	IV-Bhentkeda	232	158.80
23	पूर्व काली.	चाडिदा	IV-Chadida	598	101.02
योग . .					3397.50

**वर्ष 2007-08 में पुनरुत्पादन समूह के अन्तर्गत चयन-सह-सुधार कार्यवृत्त में कराये जाने
वाले कार्यों की स्थलवार जानकारी**

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कूप क्र./ कक्ष क्रमांक		रकबा (हेक्टेयर में)
			कूप क्रमांक/पातन श्रेणी	कक्ष क्रमांक	
1	2	3	4	5	6
1	पूर्व काली.	खातेगांव	IV-Khaighodi	576	106.30
2		बागडा	IV-Bagda	590 A	173.93
3		रोशनी	IV-Bhagpura	630	151.34
4		रोशनी	IV-Jhirpa	638	82.80
5		खातेगांव	IV-Khategoan	559	71.12

1	2	3	4	5	6
6	पूर्व काली.	विक्रमपुर	IV-Kekadiya	556	104.83
7		माथनी	IV-Mathani	554	207.41
8		ढोलगांव	IV-Dholgoan	612	164.92
9		बट्टू	IV-Chattu-Battu	610	139.68
10	आंवलिया	तावखेड़ी	IV-Vikrampur	539	128.12
11		भोजूढाना	IV-Aonliya	512	62.95
12		रानीझिरी	IV-Golkheda	529	109.84
13		गोलखेडा	IV-Semliya	505	129.84
14		तावखेड़ी	IV-Tavkhedi	542	122.44
15		रानीझिरी	IV-Mahlu	533	68.40
16		टिमरनी	IV-Kadvaliya	485	153.23
17		मोरगढी	IV-Palaspur	486 A	129.89
योग . .					2071.04

वर्ष 2007-08 में पुनर्स्थापना समूह के अन्तर्गत बिगड़े वनों के सुधार कार्य (RDF) की स्थलवार जानकारी

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	खण्डवा	भोंडवा	6	50.00
2	खण्डवा	टेमी	7	50.00
3	खण्डवा	टोकरखेडा	8	50.00
4	खण्डवा	देवला	9	50.00
5	खण्डवा	जामनिया	11	50.00
6	खण्डवा	बामझर	14	50.00
7	खण्डवा	खेडीकित्ता	34	50.00
8	खण्डवा	किरगांव	44	50.00
9	खण्डवा	मातपुर	45	50.00
10	खण्डवा	कावेश्वर	51	46.00
11	खण्डवा	दगडिया	54	50.00
12	खण्डवा	चिचलीखुर्द	68	50.00
13	खण्डवा	मांडवा	716	40.00
14	खण्डवा	मांडवा	717	40.00
15	खण्डवा	मांडवा	721	33.00
16	खण्डवा	मांडवा	722	40.00
17	खण्डवा	जामली	723	40.00

1	2	3	4	5
18	खण्डवा	जामली	724	28.00
19	खण्डवा	जामली	728	41.00
20	खण्डवा	जामली	731	50.00
योग खण्डवा . .				908.00
21	सिंगाजी	सेल्दा	459	30.00
22	सिंगाजी	मछौंडी	475	30.00
23	सिंगाजी	माथनी	463	30.00
24	सिंगाजी	द. करोली	457	27.30
25	सिंगाजी	पहेटिया	464	50.00
योग सिंगाजी . .				167.30
26	मूंदी	भमोरी	74	50.00
27	मूंदी	रोहणी	76	50.00
28	मूंदी	पालसूद	80	34.70
योग मूंदी . .				134.70
29	पुनासा	पंथिया	214	50.00
30	पुनासा	गुंजारी	214	50.00
योग पुनासा . .				100.00
31	अमुल्ला	पिपलिया	742	50.00
32	अमुल्ला	पिपलिया	743	50.00
33	अमुल्ला	पिपलिया	741	50.00
34	अमुल्ला	पिपलिया	747	25.00
योग अमुल्ला . .				175.00
35	पिपलोद	नागोतार	829	30.00
36	पिपलोद	पांगरा	968	24.00
योग पिपलोद . .				54.00
37	प. कालीभीत	ढिमरिया	854	30.00
38	प. कालीभीत	झिरपा	874	26.00
39	प. कालीभीत	कोटवारिया	897	21.00
योग प. कालीभीत . .				77.00
महायोग खण्डवा सा. वनमण्डल . .				1616.00

वर्ष 2007-08 में पुर्नस्थापना समूह के अन्तर्गत बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य (RDBF) कार्यों की स्थलवार जानकारी

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कक्ष क्रमांक	कक्ष का रकबा	बांस क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	प.का.	प.झिरपा	878	364.16	135.9
2		ढिमारिया	854	297.51	220.9
3		ढिमारिया	879	255.46	140.64
4		ढिमारिया	881	276.51	208.8
5		ढिमारिया	880	217.44	51.33
6		करवानी	885	309.03	147.32
7		जोशीनाला	909	359.33	140.19
8		पू.अंबाडा	915	344.24	144.73
9		जोशीनाला	904	277.01	163.94
10		प.अम्वाडा	914	294.68	64.32
11		मुहालखारी	890	365.32	112.92
12		मुहालखारी	905	273.62	108.06
योग :					1639.05
13	पिपलोद	खारी	817	696.29	349.69
14		खारी	818	624.92	237.49
15		धामा	819	911.33	311.71
16		धामा	820	772.91	169.79
योग:					1068.68
महायोग :					2708
क्र.	जनपद पंचायत	परिक्षेत्र	समिति का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	खण्डवा	खण्डवा	टेमी	7	50
2	पुनासा	खण्डवा	रोहणी	12	50
3	छैगांवमाखन	खण्डवा	खरकली	29	42
4	-, -	खण्डवा	भकराडा	32	50
5	-, -	खण्डवा	खेडीकित्ता	34	50

1	2	3	4	5	6
6	छैगांव माखन	खण्डवा	किरगांव	44	50
7	-,,-	-,,-	मातपुर	45	50
8	-,,-	-,,-	कावेश्वर	51	50
9	-,,-	-,,-	दगडिया	54	50
10	-,,-	-,,-	चिचलीखुर्द	68	50
11	पंधाना	-,,-	जामली	725	50
12	-,,-	-,,-	जामली	726	50
13	-,,-	-,,-	जामली	727	50
14	खण्डवा	सिंगाजी	पहेटिया	464	50
15	खालवा	-,,-	कालाआम	477	50
16	हरसूद	-,,-	माण्डला	457	50
17	-,,-	-,,-	करोली	452	50
18	पुनासा	मूंदी	बेडानी	125	50
19	-,,-	-,,-	बेडानी	125	48.80
20	पुनासा	पुनासा	गुंजारी	204	40
21			धावडिया	204	40
22			जिल्हार	204	39.70
23	खालवा	अमुल्ला	पिपल्या	741	50
24			पिपल्या	742	37.50
25		प. कालीभीत	ढिमरिया	854	38.60
26		पिपलोद	नागोतार	829	27.40
योग					1214.00

अ. क्र.	जनपद पंचायत	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कक्ष क्रमांक	कक्ष का रकबा	बांस क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	खालवा	पश्चिम कालीभीत सा.	झिरपा	886	346.93	70.36
2			झिरपा	887	287.4	108.5
3			ढिमरिया	853	401.98	168.22
4			ढिमरिया	855	272.19	125.27
5			ढिमरिया	882	238.77	167.81
6			चाकरा	846	352.43	48.72

1	2	3	4	5	6	7
7	खालवा	पश्चिम कालीभीत सा.	गुलाई	848	279.61	69.45
8			गुलाई	849	282.53	87.04
9			जोशीनाला	908	355.74	159.89
10			पूर्व अंबाडा	910	363.04	66.53
11			पूर्व अंबाडा	902	244.57	73.56
12			मुहालखारी	906	348.08	109.80
13			जोशीनाला	907	481.86	335.83
14			उदियापुर	901	263.00	83.71
योग :						1674.69
1	खालवा	पश्चिम कालीभीत सा.	गुलाई	851	169.95	45.50
2			ढिमरिया	852	259.69	93.18
3			गुलाई	857	348.46	71.14
4			दावनिया	859	252.54	54.19
5			झिरपा	872	331.99	214.08
6			झिरपा	877	286.9	144.73
7			झिरपा	873	420.31	100.30
8			मुहाल ढाना	891	237.99	111.95
9			मुहाल ढाना	903	250.58	142.73
10			मुहालखारी	911	275.69	208.16
11			अंबाडा	912	321.71	117.24
12			करवानी	892	318.38	207.50
13			करवानी	930	192.76	68.17
योग :						1578.87
1	खालवा	पिपलोद	धामा	812	389.70	174.14
2			धामा	813	712.65	532.94
3			धामा	839	356.86	223.17
4			खारी	815	465.26	163.65
योग :						1093.90
1	खालवा	पिपलोद	आराखेडा	795	672.89	398.79
2			खारी	816	870.14	422.79
3			आराखेडा	796	614.37	263.90
4			सुन्दरदेव	825	637.07	168.95
योग :						1254.43
महायोग :						5601.89

ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण कार्य द्वितीय वर्ष 2012-13

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	मुंदी	पालसूद	80-1	50.00
2	गुडी	पोखरकला	967	50.00
महायोग :				100.00

बांस वृक्षारोपण द्वितीय वर्ष रोपण कार्य की योजना वर्ष 2012-13 प्रतिबंधित क्षेत्र

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	गुडी	बोरखेडा	753	50.00
2	गुडी	लालमाटी	747	50.00
महायोग :				100.00

वर्ष 2012-13 में पुर्नस्थापना समूह के अन्तर्गत बिगड़े वनों के सुधार कार्य (RDF) संबंधित प्रतिबंधित क्षेत्र

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	खण्डवा		716	50.00
2			722	50.00
3			727	56.67
4	सिंगाजी		462-1	70.00
5			462-2	70.00
6			462-3	72.15
7	पुनासा	पंथिया	212-1	50.63
8		पंथिया	212-2	56.00
9	मुंदी	रोहणी	74	90.80
10	गुडी		741	37.55
11		पिपल्या	747	30.00
12			742	20.00
13	खालवा		969	27.47
14	पश्चिम कालीभीत		935	38.66
योग :				719.93

मिश्रित वृक्षारोपण द्वितीय वर्ष रोपण कार्य की योजना वर्ष 2012-13 प्रतिबंधित क्षेत्र

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
	गुडी		P-967	50.00
	खालवा		970	50.00
	खालवा		782	50.00
महायोग :				150.00

वर्ष 2012-13 में पुनरुत्पादन समूह के अन्तर्गत सुधार उपचार कार्यवृत्त (I.F. S.) में कराये जाने वाले कार्यों की प्रतिबंधित क्षेत्र हेतु स्थलवार जानकारी

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कूप क्र./ कक्ष क्रमांक			रकबा (हेक्टेयर में)
			कूप क्रमांक/पातन श्रेणी	कूप क्रमांक	कक्ष क्रमांक	
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	डेबरी (केसून)	टिटगांव	IX	22	195.38
2	सिंगाजी	मछोंडी	छोटातवा	IX	475	241.15
3	मुंदी		टिकारी	IX	137	113.13
4			चिकढालिया	IX	145	133.43
5		बेडानी	चांदेल	IX	119	82.72
6		चांदेल	चांदेल	IX	118	84.96
7		पुरनी पुर्नवास	जामकोटा	IX	91	192.70
8	पुनासा	गुजारी	मांधाता	IX	204, P 229	154.65
9		बिलाहा	पालडी	IX	201	230.33
10			घायडी	IX	189	177.01
11		गोराडिया	सुकवा	IX	181	137.38
12		बायफल	बायफल	IX	187	209.40
13		टाकली	हंतिया	IX	170	156.15
14	बलडी	कुडिया	बरमलाय	IX	403	186.38
			दरकली	IX	382	56.55
			दरकली	IX	P-380	31.51
			दरकली	IX	381	14.62
15	चांदगढ		अधारवाडी	IX	260 A	34.40
16		सिरकिया	अधारवाडी	IX	261	171.84
17		सिरकिया	सिरकिया	IX	259	157.95
18		अंधारवाडी	पामाखेडी	IX	283	130.43

1	2	3	4	5	6	7
19	चांदगढ़	अंधारवाडी	माथनी	IX	291	153.32
20			बांरगा	IX	286	134.43
21			कातरकुआ	IX	236	114.00
22			भेटखेडा	IX	239	150.30
23	पूर्वकालीभीत	भट्टू	चाडिदा	IX	593	166.91
24			आशापुर	IX	U-707	60.98
25	आंबलिया		आशापुर	IX	U-705	64.59
26			आशापुर	IX	U-706	29.25

योग :

3765.85

वर्ष 2012-13 में पुनरुत्पादन समूह के अन्तर्गत चयन-सह-सुधार कार्यवृत्त (S.C.I.) में कराये जाने वाले कार्यों की प्रतिबंधित क्षेत्र हेतु स्थलवार जानकारी

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	कूप क्र./कक्ष क्रमांक			रकबा (हेक्टेयर में)
			कूप क्रमांक/पातन श्रेणी	कक्ष क्रमांक	कूप क्रमांक	
1	2	3	4	5	6	7
1	पूर्व काली.		1 कालीघोडी	577	IX	101.23
2		बागडा	2 बागडा	587	IX	110.04
3			3 भागपुरा	621	IX	99.45
4		बाराकुण्ड	4 झिरपा	632	IX	138.96
5			5 खातेगांव	572	IX	185.63
6		विक्रमपुर	6 केकडिया	561	IX	96.75
7			7 माथनी	568	IX	183.15
8			8 ढोलगांव	619	IX	174.60
9			9 चटभट्टू	592	IX	189.18
10	आंबलिया		10 कदवालिया	513A	IX	168.42
11		पलासपुर	11 पलासपुर	493	IX	102.02
12		सेमल्या	12 सेमलिया	509	IX	115.33
13		बीचपुरी	13 आवलिया	514	IX	114.52
14			14 गोलखेडा	521	IX	121.06
15		मेहलू	15 मेहलू	522	IX	132.76
16			16 विक्रमपुर	544	IX	140.41
17			17 तावखेडी	535	IX	142.89
18	गुडी	बोरखेडा	भिलाईखेडा	752	VI	94.95
19			ढाकना	756	VI	82.17
20		सीतावेडी	बारेखेडा	759	VI	161.00

1	2	3	4	5	6	7
21	गुड़ी	ताल्याधड	झारीखेड़ा	775	VI	141.30
22		ताल्याधड	ताल्याधड	770	VI	79.62
23		ताल्याधड	अमूल्ला	768	VI	173.47
24	खालवा		सोनपुर	773	VI	117.90
25			आंवलिया	789	VI	106.46
26		आंवलिया	सुंदरदेव	788	VI	77.85
27			नागोत्तर	825	VI	80.32
28			जोशीनाला	823	VI	88.42
29			मोतीगढ़	811	VI	111.15
30			खारी	819	VI	77.17
31			करमाल	816	VI	112.14
32			सावलीधड	815	VI	70.65
33			गोगईपुर	796	VI	108.15
34			चूनाखाल	795	VI	86.32
35			ढकोची	802	VI	76.72
36		सावलीधड	कुम्हारखेड़ा	801	VI	121.45
37			आराखेड़ा	782	VI	114.30
38			सरमेसर	766	VI	70.12
39	पश्चिम कालीभीत	अम्बापाट	चिमईपुर	925	VI	79.87
40		कोटवारिया	सिरालिया	926	VI	73.85
41		अम्बाडा	पिपलिया	915	VI	77.62
42			अम्बाड़ा	911	VI	94.65
43			मालूद	908	VI	90.90
44			कोटवारिया	892	VI	72.22
45			काटीदा	893	VI	79.20
46			पारानदी	879	VI	91.39
47			झिरपा	876	VI	108.85
48		दावनिया	दावनिया	862	VI	85.72
49			चाकरा	860	VI	100.12
50			गोलई	853	VI	84.42
51			करवानी	929	VI	146.37
			कुलयोग . .			5653.21

(ए. के. नागर)

वनसंरक्षक,

सामान्य वनमण्डल, खण्डवा.

चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की जानकारी

क्र.	क्षेत्रीय परिक्षेत्र	रोपण वर्ष	रोपण क्षेत्र का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
इंदिरा सागर परियोजना सी. ए.					
1	खण्डवा	2002	इंजलवाडा	32.000	
2	खण्डवा	2002	सातमोहनी	25.000	
3	खण्डवा	2002	रोहणी	17.000	
योग ..				74.000	
4	खण्डवा	2003	धमनगांव	23.000	
5	खण्डवा	2003	कोदवार	27.000	
6	खण्डवा	2003	बोरदड़	25.000	
7	खण्डवा	2003	पोखरकला	105.000	
योग ..				180.000	
8	खण्डवा	2003	कक्ष क्र. 217	100.000	
9	खण्डवा	2003	कक्ष क्र. 194	70.000	
10	खण्डवा	2003	कक्ष क्र. 198	70.000	
योग ..				240.000	
11	पिपलोद	2005	राजनी	40.000	
योग ..				40.000	
12	पिपलोद	2007	सुतारखेड़ा	46.730	
13	बलड़ी	2007	बिल्लौद	44.410	
योग ..				91.140	
इंदिरा सागर परियोजना सी. ए. टी.					
10	खण्डवा	2003	कक्ष क्र. 274	100.000	
11	खण्डवा	2003	कक्ष क्र. 275	30.005	
12	खण्डवा	2003	कक्ष क्र. 282	172.780	
13	खण्डवा	2003	कक्ष क्र. 283	131.650	
14	खण्डवा	2003	कक्ष क्र. 294	20.000	
15	खण्डवा	2003	कक्ष क्र. 297	72.076	
16	खण्डवा	2003	कक्ष क्र. 330	23.000	
योग ..				549.511	

इंदिरा सागर परियोजना सी. ए. टी.

17	खण्डवा	2005	कक्ष क्र. 117	60.391
18	खण्डवा	2005	कक्ष क्र. 118	50.000
19	खण्डवा	2005	कक्ष क्र. 122	40.000
20	खण्डवा	2005	कक्ष क्र. 390	40.000
21	खण्डवा	2005	कक्ष क्र. 391	30.000
22	खण्डवा	2005	कक्ष क्र. 459	94.500
23	खण्डवा	2005	कक्ष क्र. 460	227.530
24	खण्डवा	2005	कक्ष क्र. 464	30.000
25	खण्डवा	2005	कक्ष क्र. 474	15.000
योग . .				587.421

ओंकारेश्वर परियोजना सी. ए. टी.

	सिंगाजी	2004	कक्ष क्र.221 ए	100.000
	सिंगाजी	2004	कक्ष क्र.195	102.000
योग . .				202.000

ओंकारेश्वर परियोजना सी. ए. टी.

26	मूंदी	2004	कक्ष क्र. 338-I	114.000
27	मूंदी	2004	कक्ष क्र. 138-II	114.000
28	मूंदी	2004	कक्ष क्र. 196	71.900
योग . .				299.900

ओंकारेश्वर परियोजना सी. ए. टी.

29	मूंदी	2005	कक्ष क्र.137	225.000
30	मूंदी	2005	कक्ष क्र.138-II	63.600
31	मूंदी	2005	कक्ष क्र. 140	161.400
32	मूंदी	2005	कक्ष क्र. 135	225.000
33	मूंदी	2005	कक्ष क्र. 136	225.000
योग . .				900.000

ओंकारेश्वर परियोजना सी. ए. टी.

29	मूंदी	2006	कक्ष क्र.137	188.051
30	मूंदी	2006	कक्ष क्र.141	80.719
31	मूंदी	2006	कक्ष क्र. 140	137.797
32	मूंदी	2006	कक्ष क्र. 135-II	282.845
33	मूंदी	2006	कक्ष क्र. 136-II	215.483
योग . .				904.895

पुनासा

2007

कक्ष क्र.195 ए, बी. 31.025

कुल योग . . 31.025

इंदिरा सागर सी. ए.

खण्डवा	2004	कक्ष क्र. 217	100.00
खण्डवा	2004	कक्ष क्र. 194	70.00
खण्डवा	2004	कक्ष क्र. 198	70.00
योग . .			240.00
पिपलौद	2005	राजनी	40.00
योग . .			40.00
पिपलौद	2007	सुतारखेडा	46.730
बलडी	2007	बिल्लोद	44.41

ओंकारेश्वर सी. ए.

मून्दी	2004	कक्ष क्र. 221 ए	100.00
मून्दी	2004	कक्ष क्र. 195	102.00
योग . .			202.00
पुनासा	2007	कक्ष क्र. 195 ए. बी.	31.025
योग . .			31.025

सही

वनमण्डलाधिकारी,
कावेरी क्षतिपूर्ति वनीकरण वनमण्डल, खण्डवा.

चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की जानकारी वर्ष 2008-09 वनमण्डल जलग्रहण क्षेत्र उपचार, वनमण्डल, धार

क्षेत्रीय परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक		उपचारित रकबा (हेक्टेयर में)	योग (4+5+6)
मून्दी	143	2006	IV, V	224.340
पुनासा	156	2006	VI, VII, VIII	110.000
-,,-	157	2006	IV	135.680
-,,-	158	2006	VI, VII, VIII	346.022
-,,-	159	2006	V, VI	175.204
-,,-	193	2006	V, VI	195.094
योग . .				1186.340

सही

सहायक वनसंरक्षक,
जल ग्रहण क्षेत्र उपचार,
वनमण्डल, धार.

चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की जानकारी वर्ष 2008-09 का प्रकाशन

क्र.	कक्ष क्रमांक	वर्ष 2003 का रोपण उपचारित रकबा	वर्ष 2008 का रोपण उपचारित रकबा	6
1	2	3	4	5
1	180	100.000	..	
2	180	100.000	79.716	
3	181	150.000	120.840	
4	200	50.000	..	
5	163	150.000	165.354	
6	169	150.000	..	
7	188	200.000	233.044	
8	199	100.000	107.514	
9	201	100.000	110.548	
10	202	150.000	184.885	
11	203	100.000	24.094	
12	204	..	137.380	
13	197	..	73.134	
	योग ..	1350.000	1236.509	

सही

वनमण्डलाधिकारी,

खातेगांव क्षतिपूर्ति वनीकरण वनमण्डल, देवास.

चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की जानकारी वर्ष 2006-07 का प्रकाशन

क्षेत्रीय परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	उपचारित रकबा (हे. में)		योग (3+4)
		वर्ष 2005	वर्ष 2006	
पुनासा	161	100.000	73.860	173.860
पुनासा	164	200.000	..	200.000
पुनासा	165	150.000	192.516	342.516
पुनासा	166	150.000	289.215	439.215
पुनासा	167	150.000	291.680	441.680
पुनासा	190	366.000	..	366.000
पुनासा	189	131.000	121.425	252.425
पुनासा	192	253.000	21.794	274.794
पुनासा	156	..	302.000	302.000
योग ..	9 क्षेत्र	1500.000	1292.490	2792.490

(ए. के. नागर)

वनमण्डलाधिकारी,

इछावर क्षतिपूर्ति वनीकरण वनमण्डल, भोपाल.

कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/162, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, लियरा, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 921, दिनांक 09 सितम्बर, 2003 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/257, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री के. बी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/169, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पड़री, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 949, दिनांक 05 मार्च, 2004 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/253, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री के. बी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553-A)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/163, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, कॉको तह. चितरंगी, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 916, दिनांक 09 जुलाई, 2003 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/255, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553-B)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/167, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, जरदा, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 899, दिनांक 13 मार्च, 2003 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/256, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553-C)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/176, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा माँ विंध्यवासिनी क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, नवा नगर (पश्चिम), जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 1001, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/250, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553-D)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/172, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा माँ ज्वालामुखी क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, अमझर, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 1006, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/249, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553-E)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/171, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा माँ शक्ति क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, फरम, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 998, दिनांक 04 अप्रैल, 2005 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/248, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553-F)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/170, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा जय माँ दुर्गे क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, नवा नगर (पूर्वी), जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 1007, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/247, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553-G)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/174, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा जय अंबे महिला सह. उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, धुरीताल (नवानगर), जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 763, दिनांक 04 सितम्बर, 1998 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/251, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553-H)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/173, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा प्राथमिक महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, कर्धुआ, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 771, दिनांक 21 जून, 1999 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/252, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553-I)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/164, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा विस्थापित कामगार सहकारी समिति मर्यादित, अमराताली, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 761, दिनांक 23 मई, 1998 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/258, दिनांक 13 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553-J)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/165, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा विस्थापित श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्यादित, चंदुली क्र 2 (मोहरिया टोला), जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 735, दिनांक 16 जुलाई, 1997 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/239, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री वाई. पी. तेली, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553-K)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/173, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा मछुआ वृक्ष उत्पाद फूल बीज क्रय-विक्रय एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित, मछुआगांव, तह. देवसर, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 953, दिनांक 01 जून, 2004 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/261, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553-L)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/179, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पतेरी, तह. देवसर, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 966, दिनांक 06 अक्टूबर, 2004 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/262, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553-M)

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/173, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा श्री दुर्गा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, चन्दावल, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 977, दिनांक 06 जनवरी, 2005 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था. किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुनः पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/246, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री के. बी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

रमेश प्रसाद पाल,

उप रजिस्ट्रार.

(553-N)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर-2012-अग्रहायण 2, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 08 अगस्त, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील सेवदा, भाण्डेर (दतिया), बमोरी (गुना), उदयगढ़ (अलीराजपुर), डही (धार), कुरवाई, सिरोज (विदिशा), भगवानपुरा (खरगोन), बड़वानी, सेंधवा, पाटी, बरला (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), चौरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील दतिया (दतिया), गुना, आरोन (गुना), भानपुरा, मल्हारगढ़ (मंदसौर), राणापुर (झाबुआ), अलीराजपुर, भामरा (अलीराजपुर), धार (धार), ग्यारसपुर, नटेरन (विदिशा), खरगौन, गोगावां, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), पानसेमल, निवाली (बड़वानी), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), डिण्डोरी (डिण्डोरी), धनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, विजयपुर (श्योपुर), खाचरोद, नागदा (उज्जैन), सुसनेर (शाजापुर) मेधनगर, पेटलावद (झाबुआ), जोवट (अलीराजपुर), सरदारपुर, मनावर, धरमपुरी (धार), बासौदा, लटेरी (विदिशा) सेंगांव, कसरावद (खरगौन) ठीकरी, राजपुर, अंजड (बड़वानी) पंधाना (खण्डवा), मझौली (जबलपुर), बैहर, केवलारी (सिवनी), वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, नरवर, कोलारस, करैरा, पौहरी, बदरवास (शिवपुरी), अशोकनगर, मुंगावली, ईसागढ़, चन्देरी (अशोकनगर), राघोगढ़, चाचोड़ा, कुंभराज (गुना), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, बिजावर, बड़ामल्हारा, बकस्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), हटा, बटियागढ़, दमोह, जबेरा, तेन्दूखेड़ा, पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, मझगावां, रामपुरबघेलान, उचेहरा, नागौद, अमरपाटन, रामनगर, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), सोहागपुर, ब्यौहारी, जैसिंहनगर, जैतपुर, गोहपारू, बुढार (शहडोल), जेतहरी,

अनूपपुर, कोतमा, पुष्कराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदवनास, सिहावल, मझौली, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), सुवासराटप्पा, धुन्धड़का, गरोठ, मंदसौर, सीतामऊ, शामगढ़, संजीत (मन्दसौर), जावद, नीमच, मनासा (नीमच), महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, नलखेड़ा, आगर, बड़ोद, शाजापुर, शुजालपुर, कालापपीपल, गुलाना (शाजापुर), थांदला, झाबुआ (झाबुआ), कट्टीवाडा (अलीराजपुर), बदनावर, कुक्षी, गंधवानी (धार), विदिशा (विदिशा), बड़वाह, महेश्वर (खरगौन), खण्डवा, हरसूद (खण्डवा), बुरहानपुर (बुरहानपुर), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, व्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), भैंसदेही, आठनेर (बैतूल), सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), कटनी, रीठी, बड़वारा, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बरही (कटनी), गाडरवारा, करेली, गोटेगांव, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), निवास, बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला) शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, सोंसर, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), सिवनी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, घंसौर, छपारा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.— तहसील लौण्डी, राजनगर (छतरपुर), पथरिया (दमोह), चुरहट (सीधी), सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज (सीहोर) घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, बैतूल, मुलताई, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बावई, इटारसी (होशंगाबाद), नरसिंहपुर (नरसिंहपुर), पांडुर्णा, अमरवाड़ा, मोहखेड़ा, हरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(इ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक.— तहसील बुधनी (सीहोर), पचमढ़ी (होशंगाबाद), जुन्नारदेव, परासिया, जामई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, शाजापुर, खरगौन, जबलपुर, मण्डला, सिवनी में जुताई का कार्य व श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सीहोर, होशंगाबाद, कटनी, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, खरगौन, जबलपुर, मण्डला व डिण्डोरी में जगनी की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.— ..

5. कटाई.— ..

6. सिंचाई.— जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सतना, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतियर श्रमिक.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतियर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहंत बुधवार, दिनांक 08 अगस्त, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
*जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पोरसा	..		(2) ..		
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	37.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	55.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	50.7				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	244.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	110.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	118.3				
4. घाटीगांव	79.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवदा	2.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	18.0		(2)	
3. भाण्डेर	13.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	108.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	176.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	127.0				
4. नरवर	101.0				
5. करैरा	109.0				
6. कोलारस	67.0				
7. पोहरी	72.0				
8. बदरवास	56.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	83.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	67.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	117.0				
4. चन्देरी	77.0				
5. शादौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	27.9		4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. ..
2. राघोगढ़	63.0		(2)	
3. बमोरी	16.0				
4. आरोन	22.0				
5. चाचौड़ा	88.0				
6. कुम्भराज	225.0				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	100.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	67.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	173.0				
4. टीकमगढ़	139.0				
5. बल्देवगढ़	109.0				
6. मोहनगढ़	..				
7. पलेरा	195.0				
8. ओरछा	90.0				
9. खरगापुर	..				
10. लिधौरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	257.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	60.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	149.9				
4. छतरपुर	158.6				
5. राजनगर	322.3				
6. बिजावर	109.0				
7. बड़ामलहरा	173.4				
8. बकस्वाहा	133.2				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	109.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	221.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	188.0				
4. पवई	194.4				
5. शाहनगर	202.6				
*जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5.	7. ..
1. बीना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	186.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	193.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	104.0				
4. पथरिया	258.0				
5. जवेरा	218.0				
6. तेन्दूखेड़ा	98.0				
7. पटेरा	60.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	138.9		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	160.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	117.0				
4. नागौद	170.8				
5. उचेहरा	166.0				
6. अमरपाटन	170.0				
7. रामनगर	221.0				
8. मैहर	175.0				
9. बिरसिंहपुर	180.0				
*जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. .	3. ..	5. ...	7. ..
1. ल्यौथर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिरमौर	..		(2) ..		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. गयपुरकुर्चलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	92.0		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	164.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	185.0				
4. जैतपुर	146.0				
5. गोहपारू	101.0				
6. बुढार	119.6				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जेतहरी	156.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	118.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	92.8				
4. पुष्पराजगढ़	105.4				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ...	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	107.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	133.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	165.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	102.4				
2. सिंहावल	87.2				
3. मझौली	134.0				
4. कुसमी	69.0				
5. चुरहट	248.9				
6. रामपुरनैकिन	164.4				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	184.6				
2. भानपुरा	29.6				
3. मल्हारगढ़	30.0				
4. धुन्धडका	85.0				
5. गरोठ	72.2				
6. मन्दसौर	120.0				
7. सीतामऊ	63.0				
8. शामगढ़	63.0				
9. संजीत	65.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	188.6				
2. नीमच	233.8				
3. मनासा	175.0				
*जिला रतलाम	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	46.0				
2. महिदपुर	93.0				
3. तराना	161.0				
4. घटिया	96.0				
5. उज्जैन	81.0				
6. बड़नगर	118.4				
7. नागदा	52.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	55.0				
2. सुसनेर	51.0				
3. नलखेड़ा	83.0				
4. आगर	80.0				
5. बड़ौद	97.0				
6. शाजापुर	71.0				
7. शुजालपुर	71.0				
8. कालापीपल	66.0				
9. गुलाना	62.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकरबुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	65.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	35.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	35.0				
4. झाबुआ	56.6				
5. राणापुर	30.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	39.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सोण्डवा	..		(2)	
3. अलीराजपुर	26.0				
4. कट्टीवाड़ा	143.7				
5. भामरा	28.0				
6. उदयगढ़	17.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	197.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	38.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	34.9				
4. कुक्षी	55.4				
5. मनावर	47.0				
6. धरमपुरी	53.0				
7. गंधवानी	62.0				
8. डही	12.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	79.7		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	64.2				
4. सेगांव	44.0				
5. करही	..				
6. खरगोन	32.7				
7. गोगावां	20.0				
8. कसरावद	42.0				
9. मुल्लान	..				
10. भगवानपुरा	10.0				
11. भीकनगांव	24.0				
12. झिरन्या	28.0				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	10.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	42.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	36.0				
4. सेंधवा	9.0				
5. पानसेमल	20.0				
6. पाटी	2.0				
7. निवाली	19.0				
8. अंजड़	42.0				
9. वरला	9.0				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	79.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	37.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	138.2				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	13.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	31.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	27.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	91.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	63.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	90.0				
4. ब्यावरा	78.8				
5. सारंगपुर	159.2				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	104.2				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	38.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	14.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	15.0				
4. बासौदा	36.0				
5. नटेरन	22.0				
6. विदिशा	176.0				
7. ग्यारसपुर	26.0				
*जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. हुजूर	. .		(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	287.9		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	314.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	338.0				
4. नसरुल्लागंज	401.0				
5. बुधनी	648.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	138.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	425.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	334.4				
4. चिचोली	449.3				
5. बैतूल	333.9				
6. मुलताई	353.4				
7. आठनेर	172.0				
8. आमला	420.0				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	368.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	412.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	265.0				
4. इटारसी	404.8				
5. सोहागपुर	146.0				
6. पिपरिया	175.6				
7. वनखेड़ी	131.6				
8. पचमढी	552.2				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	62.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	69.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	41.6				
4. जबलपुर	78.5				
5. कुण्डम	135.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	216.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	113.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बड़वारा	216.0				
4. विजयराघवगढ़	240.0				
5. बहोरीबंद	96.3				
6. ढीमरखेड़ा	57.0				
7. बरही	117.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	67.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	225.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	291.0				
4. गोटेगांव	97.0				
5. तेन्दूखेड़ा	102.0				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	176.7		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	66.3		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	89.6				
4. मण्डला	112.8				
5. घुघरी	99.1				
6. नारायणगंज	98.4				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जगनी की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	29.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	94.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	211.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	540.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	489.6				
4. जामई (तामिया)	771.8				
5. सोंसर	220.4				
6. पांडुर्णा	394.2				
7. अमरवाड़ा	295.2				
8. चौरई	07.5				
9. बिछुआ	237.6				
10. हरई	352.3				
11. मोहखेड़ा	326.4				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	68.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	51.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	166.9				
4. बरघाट	60.2				
5. कुरई	88.0				
6. घंसौर	75.0				
7. धनोरा	33.7				
8. छपारा	174.5				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	87.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	70.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	51.0				
4. वारासिवनी	39.0				
5. कटंगी	60.8				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला मुरैना, सागर, रीवा, रतलाम, भोपाल, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(552)